

अंतर्राष्ट्रीय

फ्रांस ने ऑपरेशन संगरिस समाप्त करने घोषणा की

फौस्टिन अर्चाज तौदेरा के मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ ही फ्रांस ने ऑपरेशन संगरिस समाप्त करने घोषणा कर दी है।

- गौरतलब है कि तौदेरा ने ऐसे समय में शपथ ली जब फ्रांस ने घोषणा की कि उनके सैनिक इस वर्ष के अंत में देश छोड़ देंगे। फ्रांस ने देश में साम्प्रदायिक हिंसा की समाप्ति के बाद सैन्य हस्तक्षेप को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- फ्रांस ने दिसम्बर 2013 में देश में हिंसा की व्यापक घटनाओं के पश्चात् ऑपरेशन संगरिस आरंभ किया था।

भारत रक्षा पर चौथा सबसे खर्चीला देश

वर्ष 2016-17 के बजट में रक्षा खर्च में 13.1 फीसदी की वृद्धि के साथ ही भारत का रक्षा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा देश बन गया है।

- भारत पिछले वर्ष छठे स्थान पर था लेकिन इस वर्ष रूस व सऊदी अरब ने अपने रक्षा खर्च में कतौती की जिसकी वजह से भी भारत चौथे स्थान पर आ गया।

चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में शुरू

परमाणु सुरक्षा पर चर्चा के लिये चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में शुरू हो गया है।

- इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रमुख तथा 5 संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- भारत का प्रतिनिधित्व नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं।

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनियाभर में मनाया गया

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस), दुनिया भर में 2 अप्रैल 2014 को मनाया गया।

- इसका उद्देश्य ऑटिज्म से ग्रस्त उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के हेतु कदम उठाना और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता देना है। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है।

उत्तर कोरिया ने सूचनाएं बाहर जाने से रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को बैन किया

उत्तर कोरिया ने देश के बाहर सूचना का आदान-प्रदान रोकने के मकसद से अब सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित कई अन्य वेबसाइटों पर भी रोक लगा दी है। उसने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, वाईस ऑफ अमेरिका और दक्षिण कोरियाई वेबसाइटों को देश में बैन कर दिया है।

- समाचार के अनुसार उत्तर कोरिया के दूरसंचार मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है।
- उत्तर कोरिया में कुछ ही लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। वहां की सरकार ने मीडिया पर भी पूर्ण नियंत्रण कर रखा है ताकि अंदरूनी जानकारी देश के बाहर न जा सके।

अल साल्वाडोर ने पहली बार सूखे आपात स्थिति की घोषणा की

मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर ने पानी की कमी के कारण आपात स्थिति की घोषणा की है।

- यह इसके इतिहास में पहली सूखी आपदा है।
- राजधानी सान साल्वाडोर के पास के निवासियों ने हाल के सप्ताहों में पानी की कमी का विरोध किया है।

- नदी और पानी आरक्षित स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है।

यूनेस्को में आर्यभट्ट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पेरिस शून्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यूनेस्को के मुख्यालय में प्राचीन भारतीय गणितज्ञ-खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

- यह प्रतिमा पद्म भूषण से सम्मानित राम सुथार ने बनाई है।

दुबई में बनेगा बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर

दुबई में एक अरब डॉलर की लागत से ऐसा टावर बनाने की तैयारी है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। बुर्ज खलीफा फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है।

- प्रॉपर्टी डेवलपर एम्मार ने कहा कि दुबई के क्रीक हार्बर में छह वर्ग किलोमीटर का मास्टर डेवलपमेंट 828 मीटर के बुर्ज खलीफा से कुछ ऊंचा होगा।

बनेगा एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला पुल

सऊदी अरब के शाह सलमान ने मिस्र को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लाल सागर पर पुल बनाने की घोषणा की है।

- पांच दिन की मिस्र यात्रा पर आए शाह ने काहिरा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाल सागर पर पुल बनने से सऊदी अरब और मिस्र के बीच व्यापार बढ़ेगा।

हाशिम थाची ने कोसोवो के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की

कोसोवो की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हाशिम थाची ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है।

- थाची, अतिफेट जहज्गा के स्थान पर 26 फरवरी 2016 को निर्वाचित हुए थे।
- 2008 में सर्बिया से आजादी के बाद कोसोवो के राष्ट्रपति बनने वाले वह चौथे व्यक्ति हैं।

फ्रांस में स्थापित होगा महाराजा रंजित सिंह काबुत

पंजाब सरकार महान सिख योद्धा महाराजा रणजीत सिंह का बुत जून महीने भारत में फ्रांस के राजदूत को सौंप दिया जायेगा जोकि महाराजा रणजीत सिंह के जनरल जीन फ्रें को इस ऐलाई की फ्रांस में जन्म भूमि सेंट ट्रुपोज में स्थापित किया जायेगा।

- पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने निवास स्थान पर एक बैठक के दौरान सेंट ट्रुपोज के डिप्टीमेयर श्री हेनरी ऐलाई के नेतृत्व में दौरे पर आये एक शिष्टमंडल को यह जानकारी दी जो कि जनरल ऐलाई के परिवार से ही हैं।

यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेनी यात्सेनियुक ने दिया इस्तीफा

एक महीने से जारी राजनीतिक संकट के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेनिय यात्सेनियुक ने अपने इस्तीफे देने के फैसले की घोषणा की। इस संकट से सरकारी काम काज प्रभावित हो रहा था।

- यूक्रेन के 15वें प्रधानमंत्री आर्सेनिय यात्सेनियुक एक वकील तथा अर्थशास्त्री थे।
- उन्होंने 2005-2006 में वित्त मंत्री के तौर पर कार्य किया था।
- 2007 में उन्होंने विदेश मंत्री तथा 2007-2008 में संसद के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया था।

चीन और पाकिस्तान का संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन-5

शुरू

चीन और पाकिस्तान ने पांचवां संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू किया है। शाहीन-5 नाम का यह सैन्य अभ्यास पाकिस्तान में 30 अप्रैल तक चलेगा।

- वर्ष 2011 से यह संयुक्त अभ्यास चीन और पाकिस्तान करते आ रहे हैं।

किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया

किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री तेमीर सारियेव कैबिनेट की एक बैठक के दौरान इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह घोषणा की।

- संसद के कई सदस्यों ने किर्गिस्तान में सारियेव की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि उन्होंने एक चीनी फर्म जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था उसको 100 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था।

भारत, अमेरिका के बीच सैन्य तंत्र को साझा करने पर सैद्धांतिक सहमति

भारत और अमेरिका जल्दी ही एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों की सेवाओं को साझा कर सकेंगे। एक-दूसरे की सेनाओं के विमानों और सैन्य नौकाओं को दूसरे के यहां इंधन भरने, मरम्मत करवाने और आराम करने की छूट होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐस्टन कार्टर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एलान किया है।

- इसी दौरान दोनों मंत्रियों ने यह भी बताया कि एक-दूसरे के सैन्य सुविधाओं को साझा करने के लिए 'लाजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट' पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। भारत अमेरिका के साथ किसी भी अन्य देश से अधिक सैन्य अभ्यास करता है।

नमामि गंगे के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और जर्मनी के जर्मन इंटरनेशनल को-आपरेशन के बीच नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस समझौते पर भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. मार्टिन ने और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव श्री शशि शेखर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता जापान को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मानव तस्करी को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग पर समझौता जापान (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

- मानव तस्करी प्रकोष्ठ एवं कार्य बल दोनों ही देशों में मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्य करेंगे।
- यह एमओयू दोनों देशों के बीच मित्रता के रिश्ते को मजबूत बनायेगा तथा मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने, बहाली, राहत एवं उनके देश-प्रत्यावर्तन के मुद्दे पर आपसी सहयोग को शीघ्रता से बढ़ायेगा।

न्यूयार्क के मेयर ने 14 अप्रैल को 'बिंदेश्वरी पाठक दिवस' घोषित किया

न्यूयार्क शहर ने एक अनूठे सम्मान के तौर पर इस साल 14 अप्रैल को बिंदेश्वरी पाठक दिवस घोषित किया। न्यूयार्क के मेयर ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिदेश्वरी पाठक के सबसे अमानवीय स्थिति में काम करने वाले लोगों के जीवन को सुधारने की दिशा में दिए गए योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया।

- न्यूयार्क शहर के मेयर बिल ड ब्लासियो ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और दुनिया को आगे की दिशा में ले जाने की खातिर असाधारण योगदान के लिए पाठक को सम्मानित किया।

विश्व हीमोफिलिया दिवस - 17 अप्रैल

विश्व हीमोफिलिया दिवस वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफिलिया द्वारा प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हीमोफिलिया और अन्य खून विकारों के लिए एक जागरूकता का दिन है।

- यह दिवस 1989 में स्थापित हुआ था।
- थीम 2016: " सब का उपचार सब का विजन "

विश्वविरासत दिवस: 18 अप्रैल

विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया।

- यह दिवस दुनिया भर में मूल्यवान संपत्ति के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।
- स्मारक और स्थलों हेतु 18 अप्रैल को मनाये जाने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2016 की थीम: खेल की विरासत।

धर्मेंद्र प्रधान की बांग्लादेश यात्रा

बांग्लादेश की यात्रा पर गए तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के हाइड्रोकार्बन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की।

- नई दिल्ली स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत संयुक्त रूप से चटगांव बंदरगाह पर एलपीजी आयात टर्मिनल की स्थापना होगी।
- अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान मंत्री ने चटगांव-त्रिपुरा पाइप लाइन बिछाने पर जोर दिया।
- बांग्लादेश ने इसी तरह पूर्वी रिफाइनरी के विस्तार के लिए सलाहकार के रूप में भारतीय इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किये हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका यात्रा पर

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वसंत बैठकों, दवाओं की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र, और अमेरिकी निवेशकों के साथ एक बातचीत में भाग लेने के लिए 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं।

- वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और कुछ भारतीय शिष्टमंडल के साथ गये हैं।
- अरुण जेटली वाशिंगटन में विश्व बैंक को सम्बोधित करेंगे
- भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी (EFP) की छठी वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक
- जी -20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक

भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 133 वें स्थान पर

भारत को ताजा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में 133 वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों को खतरे के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'उदासीन' लगते हैं।

- वर्ष 2016 का 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। फिनलैंड को इस सूचकांक में लगातार छठे साल शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उसके बाद नीदरलैंड और नॉर्वे की बारी आती है।

25 अप्रैल को पूरे विश्व में 'विश्व मलेरिया दिवस' मनाया

गया

पूरे विश्व में 'विश्व मलेरिया दिवस' मनाया गया है। 'मलेरिया' जैसी गम्भीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।

- 'विश्व मलेरिया दिवस' पहली बार '25 अप्रैल 2008' को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं।

सांगे फिर से तिब्बती 'निर्वासित सरकार' के पीएम

निर्वाचित

नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार लोबसांग सांगे को फिर से मतदान में तिब्बत की निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है।

- सांगे ने 58,740 मतों में से 58 प्रतिशत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी पेंपा त्सेरिंग को कुचल दिया।
- निर्वासित सरकार के मुख्यालय उत्तरी भारतीय शहर धर्मशाला में परिणाम जारी हुए।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर

किए

भारत ने 170 से अधिक देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार में एक उच्च स्तरीय समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- समारोह में शासनाध्यक्षों, मंत्रियों, उद्योगपतियों और कलाकारों ने हिस्सा लिया और उसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने की।

15 अगस्त को खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर

मनोरंजन पार्क

दुनिया का सबसे विशाल इंडोर मनोरंजन पार्क 'आईएमजी वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर' दुबई में 15 अगस्त को खुलेगा। इस पार्क में रोजाना 30 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेनार्ड एफ. ओटो ने संवाददाताओं से कहा, 'पार्क 96 फीसदी तैयार है और यह 15 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें करीब 28 फुटबाल के मैदान समा सकते हैं।'

22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया

22 अप्रैल 2016 को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2016 के विश्व पृथ्वी दिवस का थीम वाक्य 'ट्री फॉर द अर्थ' है।

- लक्ष्य: अगले पांच साल में 7.8 बिलियन पेड़ पौधे लगाना।

- पृथ्वी दिवस को पहली बार सन् 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है।

अमरीकी डॉलर पर पहली बार लगेगी महिला की फोटो

अमरीकी डॉलर पर पहली बार किसी महिला की फोटो लगने जा रही है। यह फोटो दास प्रथा का विरोध करने वाली महिला हैरिएट टबमेन की होगी।

- टबमेन जो 1820 में पैदा हुई थी और सैकड़ों गुलामों की मदद की, मुद्रा पर केंद्र स्थान पर होगी, जबकि जैक्सन की तस्वीर पिछले भाग पर प्रिंट होगी।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस-2016 मनाया गया

बौद्धिक संपदा दिवस-2016 विश्व भर में मनाया गया जिसका विषय था, डिजिटल रचनात्मकता: संस्कृति पुनःविचार।

- इस अवसर पर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) विभिन्न सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थानों, सामुदायिक समूहों आदि के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है।
- इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट) आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया

विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस (अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है) पुस्तकों और लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और

बढ़ावा देने, हर किसी को और विशेष रूप से युवा लोगों प्रोत्साहित करने के लिये यूनेस्को द्वारा हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है।

- विश्व पुस्तक कैपिटल 2016: ब्रोकला, पोलैंड
- विश्व पुस्तक कैपिटल 2017: कोनाक्री, गिनी गणराज्य।

क्यूबा में समुद्र के द्वारा प्रवेश या देश छोड़ने पर प्रतिबंध हटा

क्यूबा सरकार ने अपने प्रवास नीति को समायोजित करते हुए क्रूज जहाज या वाणिज्यिक पोत द्वारा प्रवेश या देश छोड़ने प्रतिबंध उठा दिया है।

- इससे पहले क्यूबा ने अन्यत्र रहने वाले क्यूबा में जन्मे व्यक्तियों के लिए एक वाणिज्यिक पोत से द्वीप की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी।

यूरोप मलेरिया उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बना: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह घोषणा की कि यूरोपियन क्षेत्र मलेरिया का प्रसार रोकने वाला पहला विश्व में पहला क्षेत्र बना।

- इस क्षेत्र में वर्ष 1995 में मलेरिया के 90712 मामले सामने आये एवं वर्ष 2015 में यह आंकड़ा शून्य हो गया।

वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने शीर्ष पुलिस अधिकारी कुआंग

वियतनाम की नेशनल असेंबली नेत्रान दाई कुआंग को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कुआंग ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

- उन्हें 13वें नेशनल असेंबली के 11वें सत्र में 481 में से 452 वोट मिले। त्रान दाई कुआंग को वियतनामी संसद में 91.5 प्रतिशत मत मिले।
- राष्ट्रपति चुने जाने से पहले कुआंग 2011 से सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। वे गुयेन टैंग डंग का स्थान लेंगे।

आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुडुर डेविड गुनलॉगसन ने इस्तीफा दिया

पनामा पेपर्स खुलासे में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुडुर डेविड गुनलॉगसन ने 5 अप्रैल 2016 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की थी जिसे खारिज कर दिया गया, इसके उपरान्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

- गुनलॉगसन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में फर्जी कंपनी बनाई। यह आरोप लगने के उपरान्त विपक्षी पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग की तथा जनता प्रदर्शन करने लगी। देश के हालात देखते हुए राष्ट्रपति ओलाफर रेग्नर ग्रिमसन अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर वापिस आ गये।

राष्ट्रीय

नैनीताल में लगी दूरबीन का दूर ब्रसेल्स से पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

देश के साथ-साथ नैनीताल एक बड़ी उपलब्धि से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से

नैनीताल में रखी एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन किया है।

- बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिचेल ने मोदी के साथ इसे भारत को समर्पित किया। करीब डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बनी इस दूरबीन को बनाने में 9 साल का वक्त लगा है।

राजस्थान : काछबली गांव बना पहला 'नशा मुक्त गांव'

शराब की लत से परेशान काछबली गांव की महिलाओं ने बीड़ा उठाया है नशामुक्ति का। उन्होंने अफसरों पर दबाव डालकर इस पर वोटिंग भी करवाई।

- प्रशासन की निगरानी में हुए मतदान में 2,039 लोगों ने अपना मत डाला, जिनमें से 1937 लोगों का मत था कि गांव में शराब का ठेका बंद हो। यानी इस गांव के 94 फीसदी लोगों ने वोट डालकर अपने गांव को राज्य का पहला नशा मुक्त गांव बनाया।

मुंबई में खुलेगा पहला मध्यस्थता केन्द्र

भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र खुलेगा। यह देश का पहला मध्यस्थता केन्द्र होगा।

- अब तक भारत के वित्तीय विवादों का फैसला सिंगापुर स्थित मध्यस्थता केन्द्र में होता था लेकिन मुंबई में मध्यस्थता केन्द्र खुलने से अब इन विवादों का फैसला भारत में ही हो सकेगा।

तेलंगाना सरकार ने आयोजित किया एम वॉलेट मोबाइल एप्प

देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा ऐसा मोबाइल एप्प लॉन्च किया गया है जिसके जरिये वाहन चालकों को अब वाहन के पंजीकरण दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर नहीं चलने पड़ेंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल एप्प के जरिए यह सुविधा दी गई है।

- एम वॉलेट अपनी तरह का पहला ऐसा एप्प है जिसे भारत के किसी राज्य में लॉन्च किया गया। इस एप्प के जरिये यूजर्स ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे और पुलिस या परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा मांगें जाने पर दिखा सकेंगे।

हरियाणा ने शहरी निकाय चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की

हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है।

- शहरी स्थानीय निकाय चुनावों लड़ने वाले पुरुष उम्मीदवारों के लिये मैट्रिक पास और उनके घर में एक शौचालय होना जरूरी होगा। जबकि महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कम से कम कक्षा आठवीं पास होना जरूरी होगा।

विद्युत प्रवाह' नामक एप्प लांच

'विद्युत प्रवाह' नामक एप्प को बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने लांच की। मंत्रालय का उद्देश्य है कि लोगों को बिजली के असली दाम का पता लग सके ताकि हर राज्य की जनता अपनी-अपनी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से सस्ती बिजली खरीदने के लिए कह सके और उन पर दबाव बना सके।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के निदेशक राजेश मेदिरता ने बताया कि विद्युत प्रवाह जैसे एप्प से बिजली की वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने आएगी। ऐसे में इस प्रकार का एप्प लोगों को बिजली की वास्तविक जानकारी देगा।

एक मई से शुरू होगी 'एक कर्मचारी एक पीएफ खाता' योजना

ईपीएफओ ने एक मई को 'एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता' पेश करने की योजना बनाई है ताकि समय से पहले भविष्य निधि की निकासी को हतोत्साहित किया जा सके और राज्य सरकारों को इसकी पेंशन प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 21 अप्रैल को हुई एक आंतरिक बैठक में यह फैसला किया है। इससे पहले सरकार 19 अप्रैल को भविष्यनिधि निकासी के संबंध में अपना फैसला वापस ले चुकी है।
- इसमें सरकार ने निकासी को सख्त बनाने और अंशधारकों को 58 साल की उम्र से पहले भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान (मूल वेतन का 3.67 प्रतिशत) को निकालने के संबंध में मानदंडों को सख्त बनाया था।

लोकल ट्रेन के अपडेट के लिए मिस्ड कॉल सेवा शुरू

मुंबई लोकल में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए पश्चिम रेलवे ने एक अनूठी सेवा शुरू की है।

- इस सेवा के द्वारा आप 1800 212 4502 नंबर पर एक मिस्ड कॉल करके मुंबई लोकल का रनिंग स्टेटस जान सकेंगे। दो रिंग के बाद कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर SMS के जरिए उपनगर की सभी ट्रेनों का रनिंग स्टेटस आ जाएगा।
- इस सेवा के लिए रेलवे ने प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है।
- इस सुविधा का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि इसे किसी भी तरह के मोबाइल फोन (स्मार्ट फोन या बेसिक फोन) से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी और यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त

होगी। इसके अलावा यदि यात्री चाहें तो वह अपनी जरूरत के मुताबिक किसी निर्धारित समय पर अपडेट लेने के लिए www.mobitip.info पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।

होने के साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी बार गलती करने पर 5 साल की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी बार गलती करने पर 50 लाख का जुर्माना हो सकता है।

श्याम बेनेगल समिति ने सेंसर बोर्ड में सुधार हेतु रिपोर्ट

सौंपी

श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) द्वारा बनाई गयी समिति ने 26 अप्रैल 2016 को केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति का गठन सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में सुधार करने हेतु किया गया।

- सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5 बी (1) बोर्ड को फिल्म पर रोक अथवा इनकार का अधिकार देता है। लेकिन यह निर्णय तभी लिया जा सकता है यदि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों से देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आती हो।
- सीबीएफसी प्रमुख एक मार्गदर्शक तंत्र की भूमिका निभायेगा और फिल्मों के प्रमाणन के बारे में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।

भ्रामक विज्ञापन के मामलों में अब ब्रांड एम्बेसेडर को हो सकती है जेल

खाद्य और उपभोक्ता मामला पर बनी स्टैंडिंग कमिटी ने भ्रामक विज्ञापन के संबंध में सिफारिशें दी हैं। सिफारिशों के मुताबिक अब विज्ञापन करने वालों की भी कानूनी जवाबदेही होगी। भ्रामक या गलत विज्ञापन करने पर सेलेब्स को सजा हो सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है।

- इन सिफारिशों के मुताबिक गलत या भ्रामक विज्ञापन करने पर दो साल की सजा मुमकिन

मुंबई सबसे अधिक ध्वनी प्रदूषित शहर: केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड

दिल्ली उच्च वायु प्रदूषण के मामले में गंदा शहर हो सकता है लेकिन मुंबई 2011-14 के दौरान लगातार लंबी अवधि के लिए सुरक्षित शोर के स्तर के उल्लंघन के चलते भारत में सर्वाधिक ध्वनी प्रदूषित शहर बन गया है।

- 1: मुंबई 2: लखनऊ 3: हैदराबाद 4: दिल्ली

भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक

एलिफैंट-2016' मंगोलिया में शुरू

भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 11वां भारत-मंगोलिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'नोमैडिक एलिफैंट-2016' मंगोलिया में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 8 मई 2016 तक चलेगा।

- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत बगावती और आतंकवादी माहौल के मुकाबले के लिए दोनों देश की सेना के बीच तालमेल और अंतर-संचालकाता का विकास करना है।

हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू

हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सम्मेलन का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए और देश के लिए निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ उसके पुनर्निर्माण को तेज करना है।

- इस सम्मेलन में 14 देश भाग ले रहे हैं और उनके अलावा कुछ देश जो सम्मेलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी शामिल हैं, कनाडा आदि हैं, वे भी इसमें भाग ले रहे हैं।

चीन से दूध और मोबाइल फोन के आयात पर प्रतिबंध

भारत ने चीन से दुग्ध उत्पादों तथा कुछ मोबाइल फोन समेत कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये निम्नस्तरीय हैं या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते पाया गया है।

- सीतारमण ने कहा कि वैसे कुछ मोबाइल फोन जिन पर अंतरराष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थी, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- वाणिज्य मंत्री ने कहा कि डब्ल्यूटीओ नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों न हो।

अंतरराष्ट्रीय सौर सेल गठबंधन एवं यूएनडीपी के मध्य सौर उर्जा का प्रसार करने के लिए सहयोग हेतु घोषणा जारी

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अंतरिम प्रशासनिक शाखा एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सौर उर्जा के विश्व भर में प्रसार हेतु एक घोषणा जारी की है।

- यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में की गयी। यूएनडीपी कार्यक्रमों और आईएसए देशों में चल रहे विभिन्न सौर उर्जा परियोजनाओं के साथ सहयोग एवं विकास कार्यों में सहयोग किया जायेगा।

शाही स्नान के साथ शुरू हुआ सिंहस्थ कुंभ

सिंहस्थ कुंभ मेला, हिन्दुओं का सबसे बड़ा मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर शाही स्नान पवित्र स्नान व जूना अखाड़ा के आगमन के साथ शुरू हुआ।

- देश भर के लोग एक बड़ी संख्या में हर 12 साल में आयोजित होने वाले एक महीने के लंबे त्योहार में भाग ले रहे हैं। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, का वास है।

छह भारतीयों टाईम की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में

छह भारतीयों को टाईम की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। वे हैं -

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन
- हिंदी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा
- टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा
- पर्यावरणविद् सुनीता नारायण
- फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल
- भारतीय मूल के गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई

मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका में आम आदमी के सर्वोच्च स्तर के विश्वास का उल्लेख किया।

दक्षिण एशियाई संस्कृति से रूबरू कराएगा 'सहपीडिया'

दक्षिण एशियाई संस्कृतियों और विरासतों को एक मंच पर पेश करने के उद्देश्य के साथ वेब पोर्टल 'सहपीडिया' लांच किया गया।

- संस्कृत शब्द 'सह' का अर्थ है 'साथ' और इसी शब्द की भावना को ध्यान में रखते हुए इस मंच का नाम 'सहपीडिया' रखा गया है। इस मंच को सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे बड़ा ज्ञान बैंक बताया जा रहा है।

भारत का अपना GPS सिस्टम, IRNSS-1G का सफल

प्रक्षेपण

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 28 अप्रैल 2016 को पीएसएलवी-सी33 के साथ भारत के सातवें भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस 1जी) को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से फर्स्ट लांच पैड (एफएलपी) से छोड़ा गया।

- इसे सब जियोसैक्रोनौस ट्रान्सफर ऑर्बिट (सब-जीटीओ) में प्रक्षेपित किया. 12 साल के डिजाइन जीवन समय के साथ उपग्रह के नेविगेशन के लिए 2 पेलोड है।

कोहिमा 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित

नागालैंड की राजधानी कोहिमा 'धूम्रपान मुक्त शहर' के रूप में घोषित किया गया है।

- आधिकारिक घोषणा कोहिमा उपायुक्त, रोविलातुओ मोर द्वारा की गई।
- एक तंबाकू उत्पाद में 4000 रसायन होते हैं जो शरीर के किसी भी भाग को नष्ट कर सकते हैं

और भारत में हर साल दस लाख लोगों के लिए मौत का कारण बनता है।

वाघा बॉर्डर पर 350 फीट ऊंचा तिरंगा लगाएगी BSF

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) 2017 तक अटारी-वाघा ज्वाइंट चेकपोस्ट पर सबसे ऊंचा तिरंगा लगाने की योजना बना रही है।

- झंडे की ऊंचाई करीब 350 फीट होगी। बीसएफ मशहूर रिट्रीट सेरेमनी वाली जगह के करीब बने विजिटर्स गैलरी का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

भारतीय नौसेना जहाज वीर और निपट कार्यमुक्त

भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) वीर और निपट मुंबई, महाराष्ट्र में नौसेना डॉकयार्ड पर कार्यमुक्त कर दिये गये।

- इन जहाजों का कार्यमुक्त समारोह वाइस एडमिरल सुनील लांबा, फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी नौसेना कमान की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।

राहुरी नगर परिषद बनी डीजी-लॉकर सुविधा रखने वाली

पहली नगर परिषद

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले कि राहुरी नगर परिषद 'डीजी-लॉकर' सुविधा रखने वाली पहली नगर परिषद बनी। इस सुविधा के तहत, राहुरी नगर परिषद के सभी महत्वपूर्ण कागजाद अब डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध रहेंगे।

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, रवि शंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से डिजिटल भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 'डीजी-लॉकर' सेवा का शुभारंभ किया।

- इसके जरिए क्षेत्र के नागरिक अब जन्म, विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर बिना नगर परिषद गए कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए

मोबाइल ऐप शुरू किया

चुनाव आयोग ने 16 मई को होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए एक नया ऐप शुरू किया है जो चुनाव से संबंधित व्यापक ब्यौरा देगा।

- ई-वोटर नाम का यह एप्प मतदाता सूची में नाम तलाशने, मतदान केंद्र की जगह का पता लगाने, उम्मीदवारों एवं उनके शपथपत्रों से जुड़ी सूचना हासिल करने में मतदाताओं की मदद करने के लिए तैयार किया गया है।
- राज्य के आईटी मिशन द्वारा तैयार किए गए इस ऐप का निर्माण बेहतर पारदर्शिता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है।

दिल्ली सरकार ने एप्प आधारित प्रीमियम बस सेवा की

घोषणा की

दिल्ली की आप सरकार ने कार उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक परिवहन के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए 'प्रीमियम बस सेवा' की घोषणा की।

- दिल्लीवासी अब जून से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से बसों में अपनी सीटें बुक करा सकते हैं।
- इस योजना के तहत केवल वातानुकूलित बसें ही चलेंगी।

- सरकार ने नयी सेवा के तहत चलने वाली हर बस में, वाईफाई और जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है।

सेना के जल प्रहार अभ्यास का समापन

शुरू हुआ सेना के जल प्रहार अभ्यास का समापन हो गया। यह अभ्यास 27 मार्च को शुरू हुआ था।

- इस अभ्यास में सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तैनात तीनों अंगों की टुकड़ी ने अभ्यास किया।

सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून लाने वाला पहला

राज्य बना महाराष्ट्र

सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वसम्मति से सामाजिक बहिष्कार (रोकधाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2016 पारित कर दिया। महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार को अपराध मानते हुए कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

- मुख्यमंत्री ने जल समस्या के निवारण हेतु 'पेयजल अभियान' भी लांच किया।

भारत, अमेरिका अपतटीय कर चोरी से निपटने पर

सहयोग करने के लिए सहमत

भारत और अमेरिका अपतटीय कर चोरी से निपटने पर सहयोग बढ़ाने और सीमा पार कर जानकारी का आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जैकब ल्यू ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अपतटीय कर चोरी और परिहार, संयुक्त टैक्स आडिट और विदेशों में टैक्स परीक्षा निपटने में सहयोग जारी रखने और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- बयान वॉशिंगटन में श्री जेटली और जैकब ल्यू सह की अध्यक्षता में 6वीं अमेरिका-भारत आर्थिक व वित्तीय भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठक के बाद जारी किया गया था।

झारखण्ड सरकार ने विधवाओं के लिए भीमराव आवास योजना आरंभ की

इस योजना का बजट 80 करोड़ रूपए है तथा इसमें विधवाओं के लिए बजट सत्र 2016-17 के दौरान 11000 मकानों का निर्माण किया जायेगा।

- पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75000 रुपये आवंटित किये जायेंगे जबकि मैदानी क्षेत्र के लिए 70000 रुपये दिए जायेंगे। यह राशि लाभार्थी को उसके बैंक खाते में तीन किश्तों में दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त विधवाओं को पेंशन भी दी जाएगी।

त्रयंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं को सशर्त प्रवेश की अनुमति

लिंग समानता के लिए अभियान के बीच, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने महिलाओं को भगवान शिव के प्रख्यात मंदिर के गर्भगृह में हर दिन एक घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी।

- ट्रस्ट ने इस शर्त के साथ प्रवेश की अनुमति दी कि गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए उन्हें गीलेसूती

या सिल्क के कपड़े पहनने होंगे। महिला कार्यकर्ताओं ने इस शर्त को मानने से इंकार करते हुए पुलिस में ट्रस्ट के सदस्यों और स्थानीय लोगों के खिलाफ मंदिर में उनके प्रवेश को बाधित करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है।

- ट्रस्ट ने बैठक में सुबह छह बजे से सात बजे तक महिलाओं को मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय किया। यह निर्णय पुणे के स्वराज्य संगठन के आंदोलन के बाद किया गया।

भविष्य के 50 शहरों की सूची में दिल्ली 44वें नंबर पर

दुनिया के भविष्य के लिए तैयार 50 शहरों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 44वें स्थान पर रखा गया है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डेल ने यह रिपोर्ट बदलते वैश्विक भविष्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिहाज से यह सूची तैयार की है। इस सूची में सान जोस पहले और सैन फ्रांसिस्को दूसरे स्थान पर है।

- दिल्ली और केंद्र सरकार के प्रयासों की वजह से इस शहर को बेहतर बनाया जा सका है।

महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर पद से इस्तीफा दिया

क्रिकेट में सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अप्रैल 2016 रियल्टी फर्म आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर पद से इस्तीफा दे दिया। नोएडा में आम्रपाली के सफायर प्रोजेक्ट के निवासियों ने ट्विटर पर धोनी को टैग करके उनसे खुद को इस बिल्डर से अलग करने के लिए कहा था।

- धोनी लगभग सात साल से कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे।

भारत में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, खुलवा सकेंगे बैंक अकाउंट

भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को जल्द ही संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा, बल्कि वे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकेंगे। वे पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे।

- सरकार भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस को भी 15 हजार रुपए से घटाकर 100 रुपए करने वाली है।
- यह पूरी तरह साफ नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कितने अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में रह रहे हैं।
- एक अंदाजे के मुताबिक, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के करीब 400 शिविर हैं।

सबसे ज्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति बन गए नेताजी सुभाष चंद्र के ड्राइवर

आजमगढ़ में रहने वाले कर्नल निजामुद्दीन अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। इसकी वजह है, कि वे अभी भी जीवित हैं और 116 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर निजामुद्दीन ने अपना पहला बैंक अकाउंट खोला है।

- कर्नल निजामुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन की वोटर-आईडी से पता चलता है, कि उनका जन्म 1900 में हुआ था। स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जब यह पेश किया गया। तबसे यह खबर अचानक से फैल गई।
- इसी साल फरवरी में एक जापानी शख्स की 114 साल की उम्र में मौत हो गई थी। वह अभी तक

सबसे ज्यादा उम्रराज जीवित व्यक्ति माना जाता था।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदर्शित होगा दुनिया का सबसे बड़ा चरखा

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर विश्व का सबसे बड़ालकड़ी का चरखा स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की एक इकाई ने यह चरखा तैयार किया है जो प्रदर्शन के लिए भेजे जाने को तैयार है।

- यह के.वी.आई.सी. चेयरमैन वी.के. सक्सेना की पहल का नतीजा है जिन्होंने हवाई अड्डे के जरिए दुनिया को भारत के अहिंसा के प्रतीक को दिखाने के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व का सबसे बड़ा चरखा स्थापित करने का निर्णय किया।

राजस्थान में शत्रुजीत अभ्यास का आयोजन

भारतीय सेना की विशिष्ट स्ट्राइक 1 वाहिनी एकीकृत वायु-भूमि युद्ध के वातावरण में दुश्मन के इलाके में गहरी हड़ताल करने की सेना की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में एक प्रमुख अभ्यास 'शत्रुजीत' का आयोजन कर रही है।

- शत्रुजीत में लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं जिन्हें वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति प्रदान की जायेगी।
- इस अभ्यास का 23 अप्रैल को समापन होगा।

अजा / अजजा के पीड़ितों को राज्य सरकारों की ओर से 8.5 लाख रुपये का न्यूनतम मुआवजा मिलेगा

केंद्र सरकार ने एसिड हमले, सामूहिक बलात्कार, हत्या व अन्य 47 अपराधों के शिकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य सरकार की ओर से 8.5 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए, नए नियम लागू किये हैं।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में संशोधन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपये से 8.25 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करेगी।
- अब घटना के होने, सूचित किये जाने और या तो पूर्ण या जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में 7 दिनों के भीतर राज्य द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
- नए नियम के अनुसार राज्य पुलिस को 60 दिनों के भीतर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों के मामलों में आरोप पत्र दायर करना है और किसी देरी के लिये अधिकारियों को लिखित रूप में व्याख्या देनी होगी।

कोंकणी संग्रहालय में गलुरु में स्थापित होगा

मांड सोभन नामक एक कोंकणी सांस्कृतिक संगठन द्वारा मंगलौर में एक कोंकणी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

- कर्नाटक बजट 2016-17 में परियोजना के लिए ₹2.5 करोड़ का आवंटन किया है।
- राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में और ₹2.5 करोड़ आवंटित करने का आश्वासन दिया है।

गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन के लिए नया केंद्र

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से नई दिल्ली में गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन (सीजीआरवीएमएस) के लिए एक नये केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया।

- मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना के गतिशील विकास और कार्यान्वयन में लगातार वैज्ञानिक सहायता के प्रावधान के लिए एक 10 वर्षीय अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- मंत्रालय ने प्रवाह ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना करके गंगा की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया है।

कटरा में वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा के पास रियासी जिले में 300 करोड़ रुपये की लागत से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण करवाया है।

- अस्पताल के कार्यावन के लिए बोर्ड ने नारायण हृदयालय लिमिटेड, बेंगलोर जो कि कि देश भर में 32 अस्पताल संचालित कर रहा है, के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है।

सरकार ने बिजली बचत की दो याजनाओं की शुरुआत की

केंद्र सरकार ने एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट एग्रीकल्चरल पंपों के डिस्ट्रीब्यूशन समेत दो स्कीम की आन्ध्र प्रदेश के विजयवाडा में शुरुआत की। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। इससे हर साल ग्राहकों के बिजली बिल में 700 रुपए सालाना की बचत होगी।

- राष्ट्रीय उर्जा दक्ष कृषि पंप कार्यक्रम और
- राष्ट्रीय उर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम
- इन योजनाओं का क्रियान्वयन बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) करेगी।

माइक्रो सोलर डोम 'सूर्य ज्योति' का शुभारंभ

केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञानमंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल माइक्रो सोलर डोम 'सूर्य ज्योति' उपकरण का शुभारंभ किया।

प्राथमिक अनुमानों के अनुसार अगर इस प्रौद्योगिकी को केवल 8 लाख परिवार ही अपना लेते हैं तो इससे 1750 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत होगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने दी नई तेल नीति को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिली साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी नए फैसले लिए गए।

- मंत्रिमंडल ने कच्चे तेल आयात क्षेत्र में एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने लिए नई आयात नीतियां तैयार करने की अनुमति दी जाएगी।
- नई नीतियों से तेल कंपनियों के परिचालन और कारोबारी लचीलेपन में वृद्धि होगी। मौजूदा तेल आयात नीति को वर्ष 1979 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी जिसे वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार अब एक दिन में पांच करोड़ पौधों का रोपण कर बनाएगी नया विश्व रिकार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार अब एक दिन में पांच करोड़ पौधों का रोपण कर नया रिकार्ड बनाएगी। यह कार्यक्रम जुलाई माह में किसी दिन 24 घंटे में प्रदेश के 6500 स्थलों पर सम्पन्न किया जायेगा।

- इससे पहले राज्य सरकार ने पिछले साल नवम्बर में एक साथ 10 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकार्ड बनाया था।

उमा भारती ने जल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नई दिल्ली में वाटर एक्सपो-2016 में जल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया है।

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और समृद्धि के लिए जल संसाधन महत्वपूर्ण है और फिल्मों के जरिए कारगर तरीके से जल संरक्षण का संदेश दिया जा सकता है। लोगों के हित के लिए ऐसी फिल्में देश के कोन-कोने में दिखाई जानी चाहिए।
- फिल्म समारोह जल सप्ताह 2016 समारोह के हिस्से के रूप में जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान जल तथा विद्युत सलाहकार सेवा (वैपकाँस) लिमिटेड द्वारा किया गया।

भारत में लैंडटाइटल विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

राजस्थान, लैंड टाइटल विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

राज्य विधान सभा ने राजस्थान शहरी भूमि टाइटल प्रमाणन विधेयक - 2016 पारित कर दिया है।

- राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण का गठन करेगी।
- इसका मतलब है कि नगर निगमों या राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा शासित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को मामूली शुल्क देकर अपनी भूमि का मालिकाना प्रमाण पत्र ले सकते हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आईएसबीएन पोर्टल का शुभारंभ किया

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लेखकों की रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्या के निदान हेतु आईएसबीएन पोर्टल का शुभारंभ किया है।

- यह एप्प विविध भाषाओं में छोटे लेखकों की मदद करने की एक बेहतर पहल है।
- प्रकाशकों और लेखकों के लिए ISBN नंबर को होना बेहद जरूरी होता है और अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार इस नंबर के लिए काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन प्रकाशक, लेखक अब पोर्टल की वजह से सिर्फ सात दिनों में आईएसबीएन नंबर पा सकते हैं।

भारत-मालदीव के बीच हुए 6 समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद भारत व मालदीव ने रक्षा, पर्यटन, कराधान, अंतरिक्ष शोध व मस्जिदों के संरक्षण को लेकर छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- एक समझौता अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे कराधान पर रोक लगाने को लेकर भी किया गया है।

झारखंड में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2%

आरक्षण

झारखंड में अब खिलाड़ियों को सभी सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी घोषणा कर खिलाड़ियों को बड़ा सम्मान दिया है।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को विभिन्न विभागों की नियुक्तियों में दो प्रतिशत आरक्षण देगी। अब तक खेल प्रतिभाओं को सिर्फ पुलिस विभाग की नियुक्तियों में दो प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर तीसरे

एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- तीन दिन के इस आयोजन में संबंधित देशों से सातसौ से अधिक बाघ विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रबंधक, दानकर्ता तथा अन्य संबंधित लोग शामिल होंगे।

प्रभु ने CCTV कैमरे वाली पहली ट्रेन 'शान-ए-पंजाब

एक्सप्रेस' का किया शुभारंभ

रेल मंत्री ने रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस देश की पहली ट्रेन के रूप में अमृतसर-नई दिल्ली 'शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस' का शुभारंभ किया। प्रभु ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा है और कोचों में कैमरे लगाना इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

- इस पर करीब 36.71 लाख रुपए का खर्च आया है। सीसीटीवी फुटेज को एक स्टोरेज डिवाइस में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक महीने का डाटा इसमें रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
- हर डिब्बे में 4 से 6 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं।

दुनिया की टॉप ट्रेनों में शामिल हुई भारत की महाराजा एक्सप्रेस

भारत की महाराजा एक्सप्रेस को विश्व की टॉप रेटिंग प्राप्त ट्रेन में शामिल किया गया, जबकि द प्लाजा न्यूयॉर्क को अमीरों के लिए सबसे अच्छा होटल करार दिया गया।

- रेलगाड़ी ने अतिथियों को विलासिता भरी यात्रा के अनुभव को पुनः परिभाषित किया ताकि अतुल्य भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदान करने वाले गंतव्य जाने का अवसर प्रदान किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने पूछो (PoochhO) कार पूल एप्प आरंभ किया

दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु पूछो (PoochhO) कार पूल एप्प आरंभ किया है। यह कारपूलिंग एप्प 15 अप्रैल से आरंभ होने वाले ऑड-इवन योजना के दूसरे चरण के लिए आरंभ किया गया है।

- कारपूलिंग के लिए स्वयं को रजिस्टर करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में दिखाए जाने वाले विकल्पों में करना होगा।
- सुरक्षा के लिहाज से, विशेषकर महिलाओं के लिए, उन्हें अपना मोबाइल नंबर देना आवश्यक नहीं है। वे कार ड्राइवर से बिना नंबर शेयर किये बात कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम एवं मेवात का नाम नूंह किया

हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम एवं मेवात का नाम बदलकर नूंह करने का निर्णय लिया है।

- गुड़गांव का नाम बदलने का निर्णय गुड़गांव के लोगों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर लिया गया।

इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका टॉप पर, भारत 44वें स्थान पर

चीन के शेनझेन में आयोजित ग्लोबल एनालिस्ट समिट 2016 में हुवावे ने अपनी तीसरी ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स (GCI) रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत का स्थान 44वां है। जबकि अमेरिका सबसे ऊपर है।

- GCI 2016 द्वारा आकलित 50 देशों का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90 प्रतिशत है और दुनिया की आबादी का 78 प्रतिशत है।
- हुआवेई का दावा है कि GCI के सर्वेक्षण के परिणामों में 10 देशों के 10 कार्य क्षेत्र से 3,000 कंपनियां शामिल हैं।

पेरिस जलवायु समझौते पर मंत्रिमंडल की मुहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इसे फ्रांस की राजधानी में विभिन्न पक्षकारों के 21वें सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था।

- पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर 22 अप्रैल को भारत की तरफ से इस समझौते पर एक उच्च स्तरीय समारोह में हस्ताक्षर करेंगे। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बुलाया है।

राजीव गांधी खेल अभियान बना 'खेलो इंडिया'

केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान योजना को हटाकर उसके स्थान पर 'अब खेलो इंडिया' की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत दो अन्य योजनाओं को भी अब 'खेलो इंडिया' के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया है।

- 'शहरी विकास बुनियादी ढांचा योजना'
- 'राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था योजना'

नागालैंड में संघर्ष विराम एक साल के लिए बढ़ा

केंद्र सरकार और एन कितोवि झिमोमी और एमबी न्योकपाओ कोन्याक के नेतृत्व में नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल परस्पर 28 अप्रैल से एक और साल के लिये युद्धविराम समझौते का विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं।

- समझौता का लक्ष्य नागालैंड में नागा लोगों की भागीदारी के साथ राज्य में स्थायी शांति लाना है।

इस वर्ष योग दिवस समारोह चंडीगढ़ में

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार का मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा।

- बड़ी संख्या में लोग एक साथ योग का प्रदर्शन करेंगे, इसलिये इसका स्थान राजपथ से बदलकर चंडीगढ़ किया गया है।

नौसेना में 7 महिला अफसरों को मिला स्थायी कमीशन

थलसेना और वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला लिया गया है। ये उन महिला अफसरों पर लागू होगा, जो पहले से ही नौसेना में हैं। 2008-09 की बैच की शार्ट सर्विस कमीशन की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।

- फिलहाल ऐसी महिला अफसरों की संख्या सिर्फ सात ही है। इससे पहले नौसेना में महिला को शार्ट सर्विस कमीशन में 14 साल ही सर्विस की इजाजत थी।
- अब 2017 से नौसेना के टोही विमान पी8 आई और डोर्नियर विमान महिलाएं भी उड़ाएंगी। नौसेना कुछ चुनिंदा युद्धपोत पर भी महिलाओं की तैनाती के बारे में सोच रही है, जहां उनके रहने लायक सुविधा है।

केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदल कर

'दीपम' रखा

केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर 'दीपम' यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया।

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते समय नाम बदलने की घोषणा की थी।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार नए नाम के तहत इस विभाग का काम सरकार को उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन और पूंजी बाजार के जरिये निवेश आकर्षित करने के मामलों में सलाह देना है।
- दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा और केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित

सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश से सम्बंधित मामलो को देखेगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को रद्द किया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को 21 अप्रैल 2016 को रद्द करने का आदेश दिया।

- उपरोक्त निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरीश रावत सरकार को 29 अप्रैल 2016 को बहुमत साबित करने का आदेश दिया।

सरकार ने भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा जारी किया

भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के मध्य विभिन्न हितधारकों, बौद्धिक जगत के लोगों और शोधार्थियों के मध्य जागरूकता और संवेदन शीलता विकसित करना है।

- यह प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने हेतु बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए एक एकल खिड़की इंटरफेस है। भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा को इस वेब पते से देखा जा सकता है <http://ictipr.in/index.php/ip-panorama>
- भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा, आईपी पैनोरमा मल्टीमीडिया टूलकिट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय और कोरिया आविष्कार संवर्धन एसोसिएशन द्वारा विकसित एक अनुकूलित संस्करण है।

आईआईएम-बंगलुरु, आईआईटी मद्रास देश के शीर्ष इंस्टीट्यूट

आईआईएम बंगलुरु को देश के शीर्ष मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की सूची में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर आया है। पहली बार घरेलू स्तर पर बनाई गई यह सूची एचआरडी मंत्रालय ने जारी की।

- मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ) में 4 श्रेणी के 3500 विभिन्न संस्थाओं को शामिल किया गया है।
- हाल में विवादों के केंद्र में रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं हैदराबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष पर हैं जबकि आईआईटी मद्रास एवं आईआईएम बंगलुरु प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थानों में अक्वल हैं।

गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली में उद्घाटन

देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। देश की इस पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच चलेगी।

- यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और 105 मिनट में 184 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम लॉन्च

पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे।

- स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दलित और महिलाओं को व्यापार के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।

- इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया और 5100 लोगों को ई-रिक्शा भी बांटे।

आधार में दर्ज लोगों की संख्या 100 करोड़ पहुंची

अब तक देश में आधार से 100 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अब जल्दी ही देश के सभी लोगों को इससे जोड़ दिया जाएगा।

- पहला आधार कार्ड 2010 में जारी हुआ था।
- हर दिन पांच से सात लाख लोगों का आधार के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जल्दी ही देश के सभी लोगों को इससे जोड़ दिया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस : 5 अप्रैल

53वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया जिसकी थीम "समुद्री सेक्टर में व्यापार में आसानी" थी।

- राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को प्रथम भारतीय पोत 'एस. एस. लोयल्टी' की याद में मनाया जाता है।

ओडिशा में 100 आदर्श स्कूलों का उद्घाटन

ओडिशा के 14 जिलों में 100 आदर्श स्कूलों का उद्घाटन किया गया, जिनमें एक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विधानसभा क्षेत्र हिनजिली के सासन अंबागांव में स्थित है। इस स्कूल का उद्घाटन पटनायक ने स्वयं किया और अन्य 99 का ऑन लाइन घोषणा कर किया।

- इनका संचालन ओडिशा आदर्श विद्यालय के तत्वावधान में किया जायेगा। इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

गुजरात में 'मां अन्नपूर्णा योजना' शुरू

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अस्तित्व में आने के तीन वर्ष बाद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने आधिकारिक तौर पर प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत "मां अन्नपूर्णा योजना" शुरू किया।

- योजना के तहत अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को 2 रुपये किलो गेहू व 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे।

दिल्ली हाट में डॉ. कलाम के नाम पर बनेगा संग्रहालय

दिल्ली सरकार ने मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की व्यक्तिगत चीजों को तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित उनके घर से दिल्ली लाया जाएगा।

- तकरीबन दो महीने तक इसे दिल्ली विधानसभा में सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद आईएनए स्थित दिल्ली हाट में डॉ. कलाम के नाम पर बनने वाले संग्रहालय जिसे "ज्ञान केंद्र" नाम दिया जाएगा, उनमें रखा जाएगा।
- दिल्ली सरकार डॉ. कलाम की पहली पहली पुण्यतिथि 27 जुलाई से पूर्व उनके नाम पर संग्रहालय बनाकर उसे जनता के लिए खोलना चाहती है।

मुंबई में चलेगी देश की पहली एसी लोकल ट्रेन

देश की पहली 12 डिब्बों वाली एसी ट्रेन चेन्नई से मुंबई पहुंच गई है। यह ट्रेन चेन्नई के इंटेग्रल कोच फैक्ट्री (आईएसएफ) से 31 मार्च को मुंबई के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन के डिब्बे स्टील से बने हुए हैं, जो ग्रे और इंडिगो रंग के हैं। अब तक लोकल ट्रेन के कोच सफेद और पर्पल रंग के होते थे।

- यह ट्रेन अन्य ट्रेनों से 25 फीसदी कम ऊर्जा की खपत करेगी।
- ट्रेन मुंबई के ट्रांस-हॉर्बर रूट पर इस महीने के अंत से चलेगी। 12 डिब्बों वाली ट्रेन की लागत 55 करोड़ रुपये है।

बिहार में नीतीश कुमार ने लागू की पूर्ण शराबबंदी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य में तत्काल प्रभाव से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई।

- बिहार में एक अप्रैल से शराबबंदी का पहला चरण शुरू हुआ था। इसके तहत गांवों में पूर्ण शराबबंदी, यानी देसी और विदेशी शराब दोनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी जबकि शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों की सरकारी दुकानों में सिर्फ विदेशी शराब बेची जा रही थी।

व्यापार व अर्थव्यवस्था**जापान देगा भारत को 14,250 करोड़ रुपए का लोन**

जापान ने भारत को पांच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए 242.2 अरब येन (14,251 करोड़ रुपए) का लोन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इनमें मालगाड़ियों के लिए विशेष गलियारा परियोजना भी शामिल है।

- मध्य प्रदेश की पारेषण प्रणाली मजबूत करने के लिए 15.45 अरब येन,
- ओडिशा की एकीकृत साफ-सफाई सुधार परियोजना (दो) के लिए 25.7 अरब येन
- समर्पित माल गलियारा (चरण एक) (तीन) के लिए 103.6 अरब येन (6,170 करोड़ रुपए)
- पूर्वोत्तर की सड़क नेटवर्क संपर्क सुधार योजना के लिए 67.1 अरब येन
- झारखंड में सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई परियोजना के जरिये बागवानी में सुधार की परियोजना के लिए 4.65 अरब येन

केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल एवं मोबाइल एप्प आरंभ किया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (<http://startupindia.gov.in>) एवं मोबाइल एप्प आरंभ किया है।

- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है एवं जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।

भुगतान कंपनी फोनपीई का फ्लिपकार्ट ने किया अधिग्रहण

फ्लिपकार्ट ने एक मोबाइल भुगतान कंपनी फोनपीई के अधिग्रहण की घोषणा की जिसकी स्थापना फ्लिपकार्ट के ही दो पूर्व कर्मचारियों ने मिल कर की थी।

- समीर निगम और राहुल चारी द्वारा स्थापित फोनपीई भारत का पहला यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित उत्पाद बना रही है।
- यूपीआई अप्रैल में शुरू होगा जिससे उपयोक्ता अपने विशिष्ट पहचान और मोबाइल फोन नंबर या आभासी भुगतान के जरिए बैंक का कोई और ब्योरा दिए बिना धन हस्तांतरण कर सकेंगे।

विदेशी निवेश के मामले में चीन को पीछे छोड़ भारत

पहले पायदान पर

भारत ने 2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिहाज से शीर्ष गंतव्य के रूप में चीन व अमेरिका को पछाड़ दिया।

- 2015 में भारत को 63 अरब डॉलर मूल्य की एफडीआई परियोजनाएं मिलीं।
- 2013 में 1.16 लाख व 2015 में 2.25 लाख नए रोजगार सृजन हुए।
- भारत में 98% एफडीआई स्वतः मार्ग जो एफआईपीबी के नियंत्रण में नहीं हैं के माध्यम से आता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार जारी किए

डायरेक्ट टैक्स से संबंधित आंकड़े

टाइम सिरीज के तहत वित्त वर्ष 2000-01 से 2014-15 के बीच विभाग द्वारा वास्तविक प्रत्यक्ष कर संग्रह, जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष कर, सरकार के लिए राजस्व संग्रह की लागत और प्रभावी आयकरदाता तथा आईटी मामलों का निपटान आदि शामिल हैं। पहली बार 84 पृष्ठ का आंकड़ा जारी किया गया है और उसे सार्वजनिक किया गया है।

- सीबीडीटी ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित कमाई और पैन धारकों की संख्या के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए हैं।

सड़क सुरक्षा के लिए राजमार्ग परियोजना लागत का 1%

रखने की योजना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की सड़क सुरक्षा के लिए किसी भी राजमार्ग परियोजना की कुल

लागत का 1% स्थापित करने के लिए अनिवार्य बनाने की योजना है।

- भारत में सालाना 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मरते और 3 लाख अपंग होते हैं।
- सरकार अगले दो से तीन साल में 50 फीसदी तक सड़क दुर्घटनाओं और मौत की संख्या को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ईपी 100 अभियान में शामिल हुई

महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभ समूह के नेतृत्व में वैश्विक ऊर्जा अभियान ईपी 100 से जुड़ने वाली देश की पहली कंपनी बन गयी है।

- ईपी 100 अभियान में शामिल होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा 2030 तक अपने ऊर्जा उत्पादकता को दोगुना करने के लिए उत्पादकता प्रतिबद्ध है।
- अंतरराष्ट्रीय गैर लाभ समूह के नेतृत्व में कंपनी दुनिया के सबसे प्रभावशाली कारोबार के ऊर्जा उत्पादकता को दोगुना करने के लिए काम करेगी।

भारत पेट्रोलियम को ओमान में निवेश बढ़ाने की मंजूरी

सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बीओआरएल) कंपनी में निवेश बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

- निवेश की राशि को डीपीई द्वारा 5 अगस्त, 2005 को जारी दिशा-निर्देशों से परे कन्वर्टिबल

वारंट्स/अन्य प्रपत्रों की खरीदारी के माध्यम से अधिकतम 3000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे बीओआरएल द्वारा जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

- इससे देश के उत्तरी और मध्य भागों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के अलावा मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा राज्य में रोजगार सृजन और कर से होने वाली आमदनी में काफी वृद्धि होगी।

बैंक को विदेशी अनुदान की खबर 48 घंटे के अंदर देनी होगी: किरण रिजिजू

गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा मिलने के बारे में बैंकों को दो दिन के अंदर कें सरकार को सूचना देनी होगी।

- विदेशी योगदान नियमन संशोधन नियमावली 2015 को 14 दिसंबर 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
- इसके अनुसार, बैंक को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में किसी भी लेन देन के 48 घंटे के भीतर कें सरकार को उसकी सूचना देनी होगी।

भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते को स्वीकार किया

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की नई व्यापार सुविधा समझौता को अपनाने की पुष्टि कर दी।

TFA को अपनाने की पुष्टि के बाद भारत को व्यापार लागत को कम कर एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण का समर्थन कर अपने आर्थिक विकास में तेजी

लाने में मदद मिलेगी। टीएफए को स्वीकार करने वाला भारत डब्ल्यूटीओ का 76वां सदस्य देश है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के विलय पर दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के बीच के विलय के लिए दिशा जारी किए हैं।

- विलय का निर्णय दो-तिहाई बहुमत से संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए
- एनबीएफसी के एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय के केस में सभी खाते केवाईसी के अनुरूप होने चाहिए क्योंकि विलय के बाद वे बैंकों के खाते बन जायेंगे।

FICCI और AIBC के बीच एमओयू ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच बढ़ेंगे बिजनेस

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) के साथ करार किया है। इस एमओयू से दोनों देशों के बीच बिजनेस प्रमोट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ने में मदद मिलेगी।

- एमओयू पर 'इन्वेस्ट इन इंडिया राउंड टेबल कांफ्रेंस' में वित्त मंत्री अरुण जेटली के उपस्थिति में साइन किया गया।
- एआईबीसी के नेशनल चेयरमैन दीपेन रुघानी ने कहा कि यह एमओयू दोनों संस्थानों के लिए माइलस्टोन साबित होगा। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा।

- इस एमओयू से दोनों संस्थानों के रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस्पात उत्पादों के आयात पर सेफगार्ड शुल्क को दो साल के लिए बढ़ाया

घरेलू इस्पात उत्पादकों को लंबी अवधि को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने चुनिंदा इस्पात उत्पादों के आयात पर 20 फीसदी तक सेफगार्ड शुल्क को दो साल के लिए बढ़ा दिया।

यह 14 सितंबर 2016 से 13 मार्च 2017 तक 18 फीसदी होगा, 14 मार्च 2017 से 13 सितंबर 2017 तक 15 फीसदी और 14 सितंबर 2017 से 13 मार्च 2018 तक 10 फीसदी होगा।

2015 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता: विश्व बैंक

विश्व बैंक के अनुसार भारत पिछले साल से एक अरब डॉलर की गिरावट के बावजूद 2015 में दुनिया का सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है। 2009 के बाद से प्रेषण में यह पहली गिरावट है।

- विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'प्रवासन और विकास संक्षिप्त' में बताया कि भारत ने 2014 में \$70 अरब के मुकाबले 2015 में \$69 अरब प्रेषण प्राप्त करने के बावजूद अपना शीर्ष स्थान सुरक्षित रखा।

बीएसएनएल भारत भर में उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा साझा सेवा की सुविधा शुरू करेगा

बीएसएनएल देश भर में प्री-पेड ग्राहकों के लिए डेटा साझा करने की सुविधा शुरू करेगा। यह चार उपयोगकर्ताओं को आपस में डेटा को साझा करने की अनुमति देगा। इस

सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

- वर्तमान में, कंपनी ने दक्षिण क्षेत्र में इस सेवा के लिए एक विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) शुरू किया है। एसटीवी लोगों के एक समूह के बीच डेटा के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।

NDB ने भारत के अक्षय ऊर्जा योजना के लिए \$ 250 मिलियन मंजूर किये

ब्रिक्स के चीन आधारित न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) ने भारत की एक अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए केनरा बैंक को \$ 250 मिलियन वित्त पोषण ऋण दिया गया है।

- विकास बैंक ने भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से चार हरित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये 811 मिलियन डॉलर वित्त पोषण की मंजूरी दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बांड की परिपक्वता में तीन साल तक कटौती की

भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बांड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका न्यूनतम कार्यकाल कम कर दिया है। शब्द "मसाला बाँण्ड" विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा रुपया-नामित उधारी का उल्लेख करने हेतु प्रयोग किया जाता है।

- विदेशों में जारी रुपया-नामित बांड के लिए कम से कम परिपक्वता अवधि तीन साल कर दी गई है जो कि पहले पांच साल थी।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक की निवेश इकाई, ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पोषित करने हेतु लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीबद्ध 1,000 करोड़ के बांड किया जारी किए थे।

अमेरिका जूरी ने भारत के टाटा समूह की दो कंपनियों पर 940 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया

एक अमेरिकी ग्रैंड जूरी ने भारत के टाटा समूह की दो कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प पर 940 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया गया है।

- टीसीएस और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल को एपिक सिस्टम के सॉफ्टवेयर चोरी के लिए कंपनी को 240 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करना होगा।
- टाटा कंपनियों को दंड के रूप में भी 700 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) सैन्य खर्च रिपोर्ट 2015

थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में सैन्य खर्च के मामले में भारत छठे पायदान पर रहा।

- थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका का रहा।
- अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य खर्च चीन, सउदी अरब, रूस और ब्रिटेन ने किया।

नीता अंबानी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी: फोर्ब्स

रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को फोर्ब्स ने एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी करार दिया है। वह इस क्षेत्र की 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर हैं जिसमें चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम,

थाइलैंड, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फिलिपीन और न्यूजीलैंड की प्रभावशाली महिलाएं शामिल हैं।

- इस सूची में आठ भारतीय महिलाओं ने स्थान बनाया है। एसबीआई की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुंधती भट्टाचार्य को 2016 की 'एशिया की 50 शक्तिशाली महिला कारोबारी' की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है।

श्री पीयूष गोयल ने वाराणसी में आईपीडीएसके अंतर्गत भूमिगतकेबिल बिछाने के कार्य हेतु आधारशिला रखी

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के पुराने काशी क्षेत्र के कबीर नगर में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य हेतु आधारशिला रखी।

- विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 432 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत ऊपर होकर जाने वाले केबलों को भूमिगत करना, 33 के.वी.के.दो नए उप-स्टेशनों की स्थापना और मौजूदा 11 उप-स्टेशनों में क्षमता का विस्तार करना शामिल है।

मनरेगा के तहत केंद्र राज्यों को देगा 12230 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा की तहत खर्च के लिए राज्यों को 12230 करोड़ जारी करने का ऐलान किया है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस फंड की मदद से राज्य सरकारें 2015-16 का बकाया पैमेंट करने के साथ-साथ 2016-17 के दौरान मनरेगा के तहत नए प्रोजेक्ट्स पर भी खर्च कर सकेंगे।

एयरटेल ने एयरसेल से खरीदा आठ सर्किलों का 4जी स्पेक्ट्रम

देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने एयरसेल के पास मौजूद आठ सर्किलों के 4जी स्पेक्ट्रम को खरीदने का एलान किया है। यह सौदा 3,500 करोड़ रुपये में हुआ है।

- एयरसेल के पास 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, आसाम, पूर्वोत्तर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में हैं।
- इस अधिग्रहण के साथ एयरटेल देश भर में 4जी स्पेक्ट्रम वाली ऑपरेटर बन जाएगी। सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की बिक्री से जुड़े नियमों को उदार बनाए जाने के बाद से टेलीकॉम क्षेत्र में ऐसे सौदे शुरू हो गए हैं।

विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में 30 टॉप निर्यातकों में भारत 19वें स्थान पर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 9 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट जारी किया जिसमें भारत वस्तुओं के निर्यात के मामले में विश्व के शीर्ष 30 देशों में 19वें पायदान पर है। सूची में चीन लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है।

- टॉप आयातकों में भारत की रैंकिंग 2015 में एक पायदान खिसककर 13वें स्थान पर आ गयी जो इससे पिछले वर्ष में 12वें स्थान पर था। आयात में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा।
- भारत का निर्यात पिछले साल 17.2% घटकर 267 अरब डॉलर रहा जबकि आयात 392 अरब डॉलर का रहा। वर्ष 2014 में देश का निर्यात और आयात क्रमशः 317 अरब डॉलर तथा 460 अरब डॉलर था।

- रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष 30 निर्यातकों में भारत 8वें स्थान पर बना हुआ है। आयात के मामले में भारत 10वें स्थान पर है।
- वर्ष 2015 में भारत का वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात 158 अरब डॉलर रहा जबकि आयात 126 अरब डॉलर था।
- रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2015 में सर्वाधिक 2275 अरब डॉलर मूल्य का वस्तुओं का निर्यात किया।
- विश्व में कुल वस्तुओं का निर्यात पिछले साल 16482 डॉलर जबकि आयात 16766 अरब डॉलर का था।

भारती एयरटेल की सहायक कंपनी को मिला भुगतान बैंक लाइसेंस

भारती एयरटेल की सहायक कंपनी एयरटेल एम कोमर्स सर्विसेज (एएमएसएल) को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक लाइसेंस मिला है। एयरटेल एम कोमर्स सर्विसेज भुगतान बैंक लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गयी है।

- पिछले साल हुए एक समझौते के तहत कोटक महिंद्रा बैंक एएमएसएल में 9 फीसदी हिस्सा रखती है जिसके साथ एएमएसएल भुगतान बैंक स्थापित करेगी।

नाउरू अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक का 189वां सदस्य बना

दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक का 189वां सदस्य बन गया है।

- 1996 में संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र गणराज्य के रूप में शामिल होने वाले नाउरू ने अप्रैल 2014 में वाशिंगटन स्थित

आईएमएफ और विश्व बैंक में सदस्यता के लिए आवेदन किया था।

भारत की वृद्धि दर 2016-17 में रहेगी 7.5 फीसदी, आईएमएफ ने जताया सुधार पर भरोसा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2016-17 में 7.5 फीसदी तक रहेगी। आईएमएफ ने कहा है कि इस तरह भारत की वृद्धि दर चीन की जीडीपी की वृद्धि दर से एक फीसदी अधिक रहेगी।

- इसमें कहा गया है कि धारणा में सुधार और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी, निजी निवेश में सुधार से वृद्धि को और प्रोत्साहन मिलेगा।
- आईएमएफ ने अपनी ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में अपने अक्टूबर के अनुमान को कायम रखा है। भारत की वृद्धि दर 2016-17 में 7.5 फीसदी रहेगी।
- वैश्विक वृद्धि के बारे में आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में यह 3.2 फीसदी तथा 2017 में 3.5 फीसदी रहेगी। आईएमएफ ने जनवरी में इस साल वैश्विक वृद्धि दर 3.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।

बैंकों को सभी लेन-देन का विवरण मानक प्रारूप में साझा करने होंगे

अब से सभी बैंकों को लेन-देन की जानकारी एक मानक प्रारूप में साझा करनी होगी।

- बैंक अब तक विभिन्न फ़ाइल स्वरूपों में डेटा प्रदान कर रहे थे जिससे एजेंसियों के लिए जानकारी का विश्लेषण करना मुश्किल हो रहा था।

- बहु प्रारूप डेटा की प्रोसेसिंग भी समय की बर्बादी कर रही थी।
- इस मुद्दे पर केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने एक बैठक की और एक सामान्य रूप से स्वीकार्य प्रारूप तैयार किया गया।

एफएसएस 6 बैंकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस समाधान प्रदान करेगी

चेन्नई की एक भुगतान प्रौद्योगिकी और लेनदेन प्रसंस्करण कंपनी, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रा. लिमिटेड (एफएसएस), ने एक होस्ट मंच पर देश भर में UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) समाधान प्रदान करने के लिए छह बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- UPI ग्राहकों के लिए आसान और सहज व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेनदेन की सुविधा देता है।
- एक बैंक ग्राहक अपने मोबाइल में इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर खाता संख्या रजिस्टर करके एक आभासी पता ले सकते हैं।

भारत, मॉरीशस के बीच पारंपरिक औषधि को बढ़ावा देने पर करार

केंद्र सरकार ने मॉरीशस के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किये जिसके निम्न लाभ होंगे_

- चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली
- विशेषज्ञों का आदान प्रदान, पारंपरिक औषधीय पदार्थों की आपूर्ति
- संयुक्त अनुसंधान और विकास
- स्वास्थ्य और चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों की मान्यता

आरबीएल स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोलने वाला

पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना

आरबीएल बैंक स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से बेंगलुरु शाखा की शुरुआत की है। समर्पित शाखा नई कंपनियों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता और विदेशी मुद्रा, प्रेषण और नकदी प्रबंधन जैसी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करेगी।

- यह अपने सहयोगियों और भागीदारों के माध्यम से पंजीकरण, कानूनी और कर औपचारिकताओं जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करेगा।

मॉर्गन स्टेनली ने बैंक ऑफ बड़ौदा और

आईसीआईसीआई बैंक की रैंक कम की

मॉर्गन स्टेनली ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई के साथ ही सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बारे में बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए रैंक कम कर दी है।

- इन बैंकों को मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में एनपीए को कवर करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराना होगा।

US से 750 मिलियन डॉलर में 145 हॉवित्जर तोप खरीदेगा

भारत

भारत ने अपने माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैयार करने के लिए अमेरिका के साथ \$ 750 मिलियन में 145 एम 777 तोपों को खरीदने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। मेक इन इंडिया के तहत ब्रिटेन आधारित बीएई सिस्टम्स द्वारा उत्पादित अल्ट्रा प्रकाश तोपों को खरीदने का यह निर्णय किया गया है।

- निर्णय भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एश्टन कार्टर के बीच एक

बैठक में लिया गया। 2012 में अमेरिका द्वारा अधिसूचित कीमत 694 मिलियन \$ थी। लेकिन तोप निर्माता ने पहले मूल्य में 10% बढ़ोतरी के संशोधन की मांग की।

बेंगलुरु की झीलों की सफाई पर 800 करोड़ रुपये निवेश

होगा

बेंगलुरु की झीलों की सफाई पर केंद्र सरकार 800 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसमें शहर की सर्वाधिक प्रदूषित झील बेलांदुर झील भी शामिल है। यह राशि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना के तहत जारी की जाएगी।

- इसके तहत 500 करोड़ रुपये एक अवजल पाइपलाइन के निर्माण पर खर्च किया जाएगा, जिसके जरिए शहर के गंदे जल को शोधन संयंत्र तक लाया जाएगा। 162 करोड़ रुपये बेलांदुर झील के लिए चार शोधन संयंत्र बनाने पर खर्च होगा।

भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौता (पीडीए) विस्तार

को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के मध्य भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (पीडीए) के विस्तार को 20 अप्रैल 2016 को अपनी मंजूरी दी।

समझौते के लाभ:

- उत्पादों के आयात और निर्यात
- विशेष रूप से खनन क्षेत्र के लिए दोहरी कराधान संधि
- व्यापार एकाग्रता बढ़ाने में मदद
- विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कई अवसर

- विस्तारित पीटीए के अधीन चिली ने साथ 1798 टैरिफ लाइनों पर भारत को रियायतें देने की पेशकश की है। भारत ने 1031 टैरिफ लाइनों पर चिली को रियायतें देने का प्रस्ताव किया है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के दस बड़े देशों में

भारत छठे स्थान पर पहुंचा: रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के दस बड़े देशों में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है।

- दुनिया के दस शीर्ष विनिर्माता देशों में चीन सबसे शीर्ष पर है। उसके बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी और कोरिया का स्थान है। इंडोनेशिया इस सूची में सबसे नीचे है।
- भारत ने इस मामले में तीन पायदान की छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के वार्षिक प्रकाशन के मुताबिक भारत में वर्ष 2015 में इससे पिछले वर्ष के मुकाबले विनिर्माण मूल्य वर्धन (एमवीए) 7.6 फीसदी बढ़ा है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल उत्पादन की ग्रोथ दर 2015 में धीमी पड़कर 2.8 फीसदी रह गई।

डीसीबी बैंक ने शुरू की बगैर पिन एटीएम ट्रांजैक्शन

सर्विस

डीसीबी बैंक ने आधार से जुड़ी एटीएम इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू की है। इसमें किसी कस्टमर को किसी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पिन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

- देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डोमेस्टिक बैंक ने इस प्रकार की सुविधा कस्टमर को देना शुरू किया है।

- एटीएम का यूज करते समय कस्टमर या तो अपने 12 अंकों वाला आधार नंबर को डाल सकते हैं या कार्ड स्वेप कर सकते हैं।

जर्मनी का केएफडब्ल्यू नागपुर में ट्रोको 500 मिलियन यूरो

का ऋण देगा

जर्मनी सरकार का डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू) नागपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) द्वारा नागपुर नगर के लिए क्रियान्वित की जा रही आधुनिक एवं निर्वहनीय मेट्रो प्रणाली के लिए 500 मिलियन यूरो (लगभग 3,750 करोड़ रुपये) का ऋण सहायता देगा।

- इस बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस. सेल्वाराज एवं केएफडब्ल्यू के महानिदेशक श्री रोनाल्ड सिलर ने हस्ताक्षर किए।
- ऋण की अवधि पांच वर्षों के ऋण स्थगन के साथ 20 वर्षों की होगी तथा संवितरण तीन वर्षों में परियोजना की प्रगति पर आधारित होगा।
- 8,680 करोड़ (यूरो 1240 मिलियन) की लागत से बनने वाली नागपुर मेट्रो परियोजना नगरों में लोगों के लिए स्वच्छ, सामाजिक समावेशन एवं जलवायु हितैषी गतिशीलता के लिए भारत-जर्मनी साझेदारी के तहत वित्त पोषित होने वाली पहली मेट्रो है।

रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बना

एऑन हेविट के ताजा अध्ययन के अनुसार रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बन गया है।

- रिलायंस एएमसी इस सूची में टॉप 25 में आने वाली एक मात्र म्यूचुअल फंड कंपनी है।

भारत में निवेश करेगी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी

अरामको

सउदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको की भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसके पास 265 अरब बैरल कच्चे तेल का जात भंडार है।

- कंपनी के प्रमुख खालिद ए.अल फलीह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत को सर्वाधिक तरजीही निवेश गंतव्य के रूप में देखती है।
- सउदी अरब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है जो कुल निर्यात का पांचवां हिस्सा निर्यात करता है।

ब्लैकस्टोन करेगी आईटी कंपनी एम्फेसिस का अधिग्रहण

अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फंड और इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्लैकस्टोन ने बताया कि वह भारतीय आईटी कंपनी एम्फेसिस का ₹7071 करोड़ (1.1 बिलियन डॉलर) में अधिग्रहण खरीदेगी। सौदे के तहत ब्लैकस्टोन कंपनी में एचपी इंटरप्राइजेज की 60.5% हिस्सेदारी ₹430 प्रति शेयर के भाव पर खरीदेगी।

- यह भारत में ब्लैकस्टोन का अभी तक का सबसे बड़ा सौदा है।
- एम्फेसिस की बड़ी आय बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल, सर्विस और इंश्योरेंस) से आती है। कंपनी अपना फोकस डिजिटल सर्विस सॉल्यूशंस पर भी बढ़ा रही है।

'पनामा पेपर्स' में सामने आये भारतीय रईसों की होगी

जांच

केन्द्र सरकार ने पनामा पेपर्स में 500 भारतीयों के नाम आने के बाद कहा है कि इसके लिये एक जांच एजेंसी बनाई जायेगी तथा सूचना पर पूरी नजर रखी जायेगी।

- पनामा की एक कानूनी एजेंसी ने खुलासा किया कि सैकड़ों भारतीयों समेत विश्व के जाने-माने लोगों के विदेशों में खाते हैं।

भारत आईडीबी में 100 मिलियन डॉलर का निर्यात

समझौता

भारत ने 56 सदस्यीय इस्लामिक विकास बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर का निर्यात समझौता किया है।

- समझौते पर आईडीबी के सीईओ खलील -अल - अबूदी तथा एक्विजिशन बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख तरुण शर्मा ने हस्ताक्षर किये।

रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की

रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है साथ ही नकदी आपूर्ति बढ़ाने के भी कई उपाय किए हैं। रेपो वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उनकी तात्कालिक जरूरत के लिए धन उधार देता है।

- रेपो दर 0.25 प्रतिशत घट कर 6.50 प्रतिशत पर
- रिवर्स रेपो 0.25 प्रतिशत बढ़ कर 6.0 प्रतिशत
- सीमांत स्थायी सुविधा दर: 7 प्रतिशत
- बैंक दर: 7 प्रतिशत
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित
- संवैधानिक तरलता अनुपात: 21.25 प्रतिशत

शाओमी ने हंगामा में किया 25 मिलियन डॉलर का

इन्वेस्टमेंट

चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी शाओमी ने कहा कि उन्होंने हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट में 25 मिलियन डॉलर (करीब 165 करोड़ रुपए) इन्वेस्टमेंट किया है। यह शाओमी का भारतीय कंपनी में किया गया पहला इन्वेस्टमेंट है।

- हंगामा के पास 700 कंटेंट क्रिएटर्स और दिल्ली, तमिल, तेलगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी और छह अन्य भारतीय भाषाओं में 8,000 फिल्मों के साथ पार्टनरशिप की है।

भूकंप और उसके पैटर्न का अध्ययन करेगा इसरो-नासा उपग्रह

भूकंप और उसके पैटर्न का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमरीकी एजेंसी नासा मिलकर एक उपग्रह लांच करेंगे।

- यह उपग्रह पृथ्वी की जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करेगा, जिसे इसरो-नासा एक्सथेटिक एपर्चर राडार (निसार) नाम दिया गया है। यह उपग्रह प्राकृतिक असंतुलन, बर्फ की चादरों का टूटकर पिघलना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन आदि को मापने और उनके अध्ययन का काम करेगा।

ओला कैब्स के एप्प से अब बुक होगा ई-रिक्शा, पीएम मोदी ने किया शुभारंभ

ऑनलाइन टैक्सी एप्प 'ओला' ने देश में ओला कैब के बाद ओला ई-रिक्शा सेवा शुरू की है। इसके तहत अब ओला ई-रिक्शा को एप्प के जरिए बुक किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत ओला के ई-रिक्शा का औपचारिक ऐलान किया।

- भारतीय माइक्रो क्रेडिट (बीएमसी) के साथ साझेदारी में कुल 5,100 ओला ई-रिक्शा शुरू किए जाएंगे। इन्हें शुरुआती दौर में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में चलाया जाएगा।

सरकार ने ईरान के निर्यात कोष को 3000 करोड़ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के एक्सिम बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के नेतृत्व में ईरानी बैंकों के समूह के बीच समझौते के दायरे को बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इसके तहत भारत से ईरान को सामान और सेवाओं के निर्यात को 900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ करने के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।

- इस प्रस्ताव से भारत द्वारा ईरान को किए जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से रणनीतिक साझेदारी के तहत ईरान के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होंगे।

दिल्ली डेयरडेविल्स की मुख्य प्रायोजक बनी मदन डेयरी

इंडियन प्रीमियर लीग के नौवें सत्र में मदन डेयरी जहीर खान की अगुवाई वाली दिल्ली डेयरडेविल्स टीम की मुख्य प्रायोजक होगी।

- इस करार के तहत ब्रांड मदन डेयरी का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स टीम की जर्सी पर नजर आयेगा।

नियुक्तियां

फौस्टिन अर्चाज तौदेरा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

फौस्टिन अर्चाज तौदेरा ने राजधानी बांगुइ स्थित मुख्य स्टेडियम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही 58 वर्षीय तौदेरा पिछले तीन वर्षों में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति नियुक्त हुए।

- इससे पहले वर्ष 2013 में मुस्लिम विद्रोही संगठन ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया था।

पैट्रिक डुपुई विप्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त

विप्रो लिमिटेड ने पैट्रिक डुपुई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया, वे 1 अप्रैल 2016 से पद ग्रहण करेंगे। डुपुई बोर्ड के स्वतन्त्र निदेशक होंगे।

- उन्हें इस क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का वृहद अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे पेपैल होल्डिंग्स, इंक में सादगी, गुणवत्ता और वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच एवं उत्पादकता के सीनियर वाईस प्रेसिडेंट हैं।

गुयेन वियतनाम संसद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई

वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली (एनए) ने आज गुयेन थी किम नगन को अध्यक्ष चुना। वह देश की पहली महिला एनए अध्यक्ष हैं।

- गुयेन 13वीं नेशनल असेंबली के 11वें सत्र में 481 में से 472 वोट पाकर अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्होंने एनए अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है।

- उन्हें एनए परिषद की भी अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए हुए गुप्त मतदान में उन्हें 477 में से 467 वोट मिले।
- गुयेन चुनाव से पूर्व जुलाई 2011 से एनए की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं।
- बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिचेल ने मोदी के साथ इसे भारत को समर्पित किया। करीब डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बनी इस दूरबीन को बनाने में 9 साल का वक्त लगा है।

राजीव गौबा बने केंद्रीय सचिव

झारखण्ड के मुख्य सचिव राजीव गौबा भारत सरकार में नगर विकास सचिव बनाए गए हैं। राजीव गौबा हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी मधुसूदन प्रसाद का स्थान लेंगे।

- इधर, राजीव गौबा के केंद्र में सचिव नियुक्त होते ही झारखंड में नए मुख्य सचिव की खोज शुरू हो गई है।

शुभदर्शिनी जार्डन और नंदिनी पुर्तगाल में भारत की नयी राजदूत

जर्मनी में भारतीय दूतावास की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन शुभदर्शिनी त्रिपाठी को जार्डन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है।

- विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पश्चिम यूरोप) के. नन्दिनी सिंगला को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है।
- मसाकुई को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
- सतेन्द्र कुमार को बारबडोस का उच्चायुक्त बनाया गया है।

भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने हेतु मधुकर गुप्ता समिति गठित की गयी

केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को भारत एवं पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए समिति गठित की ताकि उससे मिले सुझावों को अमल में लाया जा सके। यह समिति भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने में आने वाली दिक्कतों एवं असुरक्षा के मुद्दों को भी देखेगी।

- इस समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे एवं अगले तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे।
- इस समिति का प्रमुख उद्देश्य सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ में देरी एवं अन्य दिक्कतों की जांच करना तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर अन्य सभी मुद्दों को देखना है। यह समिति बाड़ सम्बन्धी दिक्कतों को बताएगी तथा समस्या हल करने के लिए बेहतर विकल्प भी सुझाएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला न्यास का पुनर्गठन, रामबहादुर राय बने अध्यक्ष

केन्द्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास (आईजीएनसीए) के बोर्ड का पुनर्गठन कर वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है।

- प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मान सिंह, फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, गीतकार प्रसून जोशी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. महेश चंद्र शर्मा तथा श्री नितिन देसाई सहित 20 लोगों को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है।

अजय-काजोल होंगे आंध्रप्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल आंध्र प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं।

- राज्य सरकार के अनुसार 2015 में 8 लाख पर्यटकों ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया जिससे पिछले साल के मुकाबले 30% वृद्धि हुई। इनमें से 237000 मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सिंगापुर, मलेशिया और पश्चिम एशिया के विदेशी पर्यटक थे।
- सीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अजय ने कहा कि वह पत्नी काजोल के साथ अमरावती और राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं।

चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी पांचवें कार्यकाल के लिये चुने गये

पेट्रियटिक साल्वेशन मूवमेंट (एमपीएस) पार्टी के इदरिस डेबी ने 1990 से पांचवीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है।

- उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान में 61.56 प्रतिशत से अधिक वोट मिले जबकि के विपक्ष के नेता सालेह केब्जाबो को 12.8 फीसदी वोट मिले।

कांगो के प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट मुआम्बा

कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सेसु गैसो ने प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व वित्त मंत्री क्लेमेंट मुआम्बा को चुना है, सरकार में कभी विपक्ष के नेता थे।

- यह नियुक्ति सेसु गैसो को पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद हुई है।

भूपेंद्र केंथोला एफटीआईआई के निदेशक बने

भूपेंद्र केंथोला, 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- एफटीआईआई, देश का प्रमुख संस्थान है जो अभिनय, फिल्म निर्माण, वीडियो संपादन, निर्देशन और उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

बिश्वदीप डे त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

श्री बिश्वदीप डे को त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

- वह वर्तमान में भारतीय दूतावास, थिम्पू में मिशन के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं।

नगालैंड के मुख्य सचिव पंकज कुमार पहले बालिका राजदूत बने

नगालैंड के मुख्य सचिव पंकज कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) परियोजना के तहत पहले बालिका राजदूत (AFGC) बन गये हैं

- हर AFGC विशेषाधिकार प्राप्त बालिकाओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की दिशा में योगदान के अलावा एक बेहतर जीवन जीने का मौका प्रदान करेगा।

सी.पी. गुरनानी नैसकॉम के चैयरमैन नियुक्त

सी.पी.गुरनानी को वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज संघ (नैसकॉम) का चैयरमैन नियुक्त किया गया है।

- क्वॉट्रो ग्लोबल सर्विसेज के चैयरमैन रमन रॉय को 2016-17 के लिए नैसकॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सचिन तेंदुलकर 'स्किल इंडिया' अभियान के ब्रांड एंबेसडर बने

क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 'स्किल इंडिया' अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।

- स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को न्यू दिल्ली प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गयी, जिसका मकसद 40.2 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाना है।
- सचिन के स्किल इंडिया अभियान के लिए मनोनीत से इस अभियान के तहत भारत की मौजूदा युवा शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी।

गोजावाज़ ने अमिताभ कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया

लॉजिस्टिक्स फर्म गोजावाज़ ने अमिताभ कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है।

- कुमार की नियुक्ति विजय घाडगे द्वारा मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) पद से हटने पर की गयी।

लावा के ब्रांड एंबेसेडर बने महेंद्र सिंह धोनी

मोबाइल हैंडसेट कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एंबेसेडर घोषित किया है।

- धोनी लावा के मल्टी-चैनल विज्ञापन अभियान के साथ-साथ ब्रांड से जुड़ी गतिविधियों का नया चेहरा होंगे। इस गठजोड़ के माध्यम से लावा का लक्ष्य अपने ब्रांड की पहचान को भारतीय हैंडसेट उद्योग में सर्वाधिक विश्वसनीय बनाना है।

वित्त सचिव जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क अधिकारी

नियुक्त

केन्द्र ने वित्त सचिव रतन वातल को जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है

- उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री विकास पैकेज के सहज क्रियान्वयन के लिए राज्य को धन का प्रवाह तेजी से सुनिश्चित करने की होगी।

विजय शेखर शर्मा आईएएमआई भुगतान बैंकों के समूह

के अध्यक्ष नियुक्त

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को नवगठित भुगतान बैंकों के समूह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमआई) के अध्यक्ष और वोडाफोन इंडिया के बिजनेस हेड सुरेश सेठी को वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है।

- आईएएमआई भुगतान बैंक बैंकिंग सुविधा रहित आबादी को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने का एक अभिनव मॉडल है।

ब्लादिमीर ग़ोसमेन बने यूक्रेन के प्रधानमंत्री

यूक्रेन की संसद ने पश्चिम समर्थक वोलोदमीर ग़ोसमेन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सांसदों ने 50 के मुकाबले 257 वोटों से वोलोदमीर ग़ोसमेन को देश का 16वां प्रधानमंत्री चुना।

- सांसदों ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अरसेनी यात्सेनयुक के इस्तीफे पर मुहर लगा दी।
- ग़ोसमेन अरसेनी यात्सेनयुक का स्थान लेंगे, जिनकी पहली सरकार के दौरान 2014 में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यांकोविच की सरकार गिराए जाने के बाद वे उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे।

सुष्मिता पांडे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की

अध्यक्ष नियुक्त

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर सुष्मिता पांडे को तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

- वह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु प्रभा रे का स्थान लेंगी।
- केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के तहत एनएमए केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ मोजाम्बिक में भारत के अगले उच्चायुक्त

के रूप में नियुक्त

मंत्रालय में निदेशक, 1999 कैडर के आईएफएस अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को मोजाम्बिक गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

- वह जल्द ही अपनी नई इयूटीज्वाँइन करेंगे।

गीता जौहरी गुजरात की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी

गीता जौहरी गुजरात की पहली महिला शीर्ष पुलिस अधिकारी बनी है। इसके साथ ही वह गुजरात की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

- गीता को एडीजीपी के पद से पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है और वह गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने वर्तमान पद पर जारी रहेगी।
- वह 1982 बैच की आईपीएस अधिकारी है, जो मूल रूप से तमिलनाडु से है।

महेश अय्यर थॉमस कुक सीओओ पद पर नियुक्त

थॉमस कुक ने अपने विदेशी मुद्रा प्रभाग के प्रमुख महेश अय्यर को मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के पद पर पदोन्नत किया है।

- वह कारोबार के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- वह भारत, मॉरीशस और श्रीलंका में वीजा और विदेशी मुद्रा व्यापार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।

पीसीबी के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में इंजमाम-उल-हक की नियुक्ति की

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई चयन समिति के प्रमुख (पीसीबी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

- इंजमाम पूर्व बल्लेबाज हारून रशीद की जगह लेंगे।

- वह पिछले छह महीनों से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे।

भारत की दुर्गा ठाकुर बनी एफआईएच अंतरराष्ट्रीय अंपायर

भारत की दुर्गा ठाकुर को हाल में न्यूजीलैंड में हुए हाकेज बे कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा अंतरराष्ट्रीय आउटडोर अंपायर नियुक्त किया गया। एफआईएच की अंतरराष्ट्रीय अंपायरों की एलीट सूची में वर्तमान में 14 भारतीय (10 पुरुष, 4 महिला) हैं।

- दुर्गा ने अंपायर के तौर पर अपना करियर 2013 में भोपाल में तीसरी हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (फाइनल्स) से शुरू किया था।
- उन्होंने वर्ष 2011 में एनएसएनआईएस से ग्रेजुएशन की और उन्हें 2015 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट मिला जो नीदरलैंड के ब्रेडा में डबल सिक्स-नेशनकप था।

लाओस में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त

लाओस की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बौनहांग बोराचिट को राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री थांगलौन सिसौलिथ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

- नेशनल असेंबली ने दो तिहाई से अधिक वोट के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है।

केंद्र ने रबर बोर्ड के प्रमुख के रूप में ए अजित कुमार की नियुक्ति की

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ए अजित कुमार, केरल कैंडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी की नियुक्ति रबर बोर्ड, कोट्टायम के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति को

मंजूरी दी है। यह पद अगस्त 2014 के बाद से खाली पड़ा है।

राहुल जौहरी बने बीसीसीआई के पहले सीईओ

बीसीसीआई ने कहा है कि उसने राहुल जौहरी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के चलते सीईओ की नियुक्ति की है।

- इससे पहले राहुल जौहरी डिस्कवरी नेटवर्क्स एशिया पैसिफिक में कार्यकारी उपाध्यक्ष और दक्षिण एशिया के महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे।
- वे एक जून को पद संभालेंगे। उनकी हितधारक प्रबंधन और सीईओ के रूप में खेल को बढ़ावा देने के लिए मजबूत रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी।

सुरेश बाबू मंगोलिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

आर्मीनिया में भारत के वर्तमान राजदूत टी सुरेश बाबू को मंगोलिया के लिए देश के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है।

- उनके शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति पी के मिश्रा गोवा के लोकायुक्त नियुक्त

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा को गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।

- मिश्रा हाल ही में गोवा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त हुए हैं।

- वह गोवा के पहले लोकायुक्त जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का स्थान लेंगे।

पुरस्कार

रणवीर सिंह बने 'महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर'

फिल्म 'बैंड बाजा बारात' फिल्म से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखने वाले रणवीर सिंह को फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव द्वितीय की भूमिका निभाने के लिए 'महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर' अवार्ड से नवाजा गया।

- आशा भोंसले को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार 'लोकमत' की ओर से दिया जा रहा है।
- रणवीर को यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों दिया गया।

मिस्र के उपन्यासकार अहमद नाजी पेन पुरस्कार हेतु चयनित

पेन अमेरिका ने कारावास में बंद मिस्र के उपन्यासकार और पत्रकार अहमद नाजी को पेन/बार्बी फ्रीडम ट्रू राईट अवार्ड से सम्मानित किये जाने की घोषणा की।

- यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में 16 मई 2016 को पेन अमेरिका के वार्षिक साहित्यिक पर्व पर दिया जायेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी को सउदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

सउदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द किंग अब्दुल्लाजीज साश' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार आधुनिक सउदी राज्य के संस्थापक अब्दुल्लाजीज अल सौद के नाम पर है।

- शाह सलमान बिन अब्दुल्लाजीज ने शाही कोर्ट में प्रधानमंत्री को इस सम्मान से विभूषित किया, जहां दोनों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

वेदांता का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज

वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर प्लांट में 30 अक्टूबर 2015 को जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निजी कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों आसपास की पंचायतों के 5928 लोगों ने 53 मिनट में 2 लाख 8 हजार 751 पौधे प्लांट में लगाकर बनाया विश्व रिकार्ड गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के में दर्ज हो गया है।

- तलवंडी साबो पावर लिमिटेड आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएस एस प्रमाणित कंपनी है ओर पंजाब का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड पावर प्रोजेक्ट है।

राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार - 2014 प्रदान किये

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार - 2014 प्रदान किये।

- इस वर्ष 33 भू वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कारों (एनजीए-2014) से सम्मानित किया गया। इनमें 1 पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए, 1 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार तथा 16 भू विज्ञान क्षेत्रों में 19 व्यक्तिगत तथा टीम पुरस्कार भी शामिल हैं।

विश्वनाथन आनंद को मिलेगा हृदयनाथ पुरस्कार

शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को हृदयनाथ पुरस्कार दिया जायेगा। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को दिया जाता है।

- वह महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

बर्नी सैंडर्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का टाइम पाठक सर्वेक्षण जीता

समाजवादी डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स ने टाइम पत्रिका द्वारा किए गए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए किए गए पाठको के सर्वेक्षण को 3.3% वोटों के साथ जीता। हिलेरी क्लिंटन 1% वोटों के साथ 25वें स्थान पर रही।

- बर्नी ने पोल पर कुल मतों के 3.3% हासिल किये तथा दक्षिण कोरियाई बैंड बिग बैंग 2.9%, आंग सान सू की 2.2% और ओबामा 2% को पछाड़ा ।

पानागढ़ एयरबेस का नाम हुआ अर्जन सिंह एयरबेस

भारतीय सेनाओं के ग्रेंड-ओल्ड मैन कहे जाने वाले और मार्शल ऑफ एयरफोर्स, अर्जन सिंह के 97वें जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस को "अर्जन सिंह एयरबेस" नाम दिया गया।

- एयरबेस कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बर्द्धमान जिले में स्थित है। यह एयरबेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी।
- पाकिस्तान के साथ 1965 व 1971 के युद्ध में इस एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी।

फोर्ब्स की पहली कभी 'ग्लोबल गेम चेंजर्स' सूची जारी, तीन भारतीय शामिल

फोर्ब्स की वैश्विक गेम चेंजर्स सूची के उद्घाटन संस्करण में कुछ बड़े नामों को स्थान दिया गया है।

- Salesforce.com के मार्क बेनिओफ अक्वल रहे और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग 30 वां स्थान पर रहे।
- तीन भारतीयों की सूची में शामिल किया गया है, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया, सीरम संस्थान के साइरस पूनावाला और जेम्स एजुकेशन के सनी वार्की क्रमशः तीसरे, 23वें और 26वें स्थान पर रहे।

टी एन निनन को मुंबई प्रेस क्लब लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

मुंबई प्रेस क्लब ने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अध्यक्ष और संपादकीय निदेशक टी एन निनन का 'पत्रकारिता में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए रेडइंक पुरस्कार' हेतु चयन किया है।

- पुरस्कार 26 अप्रैल को नई दिल्ली में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव द्वारा निनन को प्रस्तुत किया जाएगा।

राधिका को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

अभिनेत्री राधिका आप्टे ने ट्रिबेका फिल्मोत्सव की इंटरनेशनल नेरटिव फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है।

- 'मैडली' में छह खंड हैं, जिसमें राधिका अभिनित 'क्लीन शेवन' का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है।

पाकिस्तानी महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता को नेल्सन मंडेला पुरस्कार

पाकिस्तान के अशांत स्वात घाटी की एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता तबस्सुम अदनान को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। 39 साल की तबस्सुम को कोलंबिया के बोगोटा में कल नेल्सन मंडेला-ग्रेका माशेल इनोवेशन अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया।

- उन्हें 25 से 28 अप्रैल के बीच आयोजित किए गए इंटरनेशनल सिविल सोसायटी वीक आईसीएसडब्ल्यू के आखिरी दिन व्यक्तिगत स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया।
- तबस्सुम की 13 साल की उम्र में शादी हो गयी थी। वह शादी के बाद अकसर घरेलू हिंसा की शिकार बनती रहीं लेकिन 20 साल बाद उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए अपने शोषक पति से तलाक लेकर इसका अंत कर दिया।

मनोज बाजपेयी होंगे दादा साहब फाल्के (क्रिटिक्स चॉइस) से सम्मानित

अभिनेता मनोज बाजपेयी को इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें हंसल मेहता की फिल्म 'अलीगढ़' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स चॉइस) की श्रेणी में यह अवार्ड मिलेगा।

- पुरस्कार 1 मई 2016 को प्रदान किया जायेगा।

(एनजेडडी) को बैंकनोट ऑफ़ द इयर पुरस्कार-2015 प्रदान किया गया।

3 उड़ीया कलाकारों को केन्द्र संगीत नाटक अकादमी

सम्मान

प्रख्यात तीन ओडिशा कलाकारों को प्रतिष्ठित "केन्द्र संगीत नाटक अकादमी सम्मान" के लिए चुना गया है। तीन व्यक्तिय हैं:

- प्रफुल लाकड - लाइट संगीत कलाकार
- आलोक कानूनगो - ओडिसी डांसर
- सदाशिव प्रधान - छाऊ डांसर

रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मास्को में जीता स्वर्ण

अंतरराष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित नौवे सैंड स्क्लप्चर चैंपियनशिप द मैजिकल वर्ल्ड आफ सैंड-2016 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।

- पटनायक को यह पदक सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 15 फीट ऊंची आकृति बनाकर विश्व में शांति का संदेश देने के लिये दिया गया है।
- 21 से 27 अप्रैल तक हुई इस प्रतियोगिता को रूस के माँस्को के कोलोमेंशको में आयोजित किया गया था जिसमें दुनियाभर के शीर्ष 20 रेत कलाकारों ने भाग लिया।

न्यूजीलैण्ड के पांच डॉलर नोट ने बैंक नोट ऑफ़ द इयर

पुरस्कार जीता

अंतरराष्ट्रीय बैंक नोट सोसाइटी (आईबीएनएस) द्वारा 25 अप्रैल 2016 को न्यूजीलैण्ड के पांच डॉलर के नोट

- इसके अग्रभाग पर न्यूजीलैण्ड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी एवं दक्षिणी आइलैंड के माउंट कुक को दर्शाया गया है। इसमें पीली आंखों वाले तथा रंग बदलने वाले (होईहो) पेंगुइन को भी दिखाया गया है. इस प्रतियोगिता में 20 देशों से 40 डिजाईन दर्ज किये गये थे।

भारतीय वृत्तचित्र 'अंडरकवर एशिया : गर्ल्स फॉर सेल' ने न्यूयॉर्क समारोह 2016 में कांस्य पदक जीता

भारतीय वृत्तचित्र फिल्म, 'अंडरकवर एशिया : गर्ल्स फॉर सेल' ने सामाजिक मुद्दे श्रेणी में न्यूयॉर्क समारोह 2016 में एक कांस्य दुनिया पदक जीता है।

- वृत्तचित्र फिल्म तस्करी विरोधी कार्यकर्ता ऋषि कांत द्वारा दो नाबालिग लड़कियों, जिनका अपहरण कर लिया गया है, की खोज पर आधारित है।

दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई जेनिफर एनिस्टन

हॉलीवुड की शानदार अदाकारा जेनिफर एनिस्टन को पीपुल पत्रिका ने 2016 के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का करार दिया है.

- उन्हें 2004 में भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है।
- पिछले साल विजेता सैंड्रा बुलॉक थी।
- एनिस्टन ने 2002 में एक एमी पुरस्कार जीता और 2003 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता।

महिलाओं की नियुक्ति के लिए टीसीएस टाइम्स की सूची में शामिल

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सलाह एवं कारोबार हल सेवाएँ देने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को ब्रिटेन में महिलाओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति के लिए 'द टाइम्स समाचार पत्र' के 50 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में शामिल किया गया है।

- आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी में विश्व स्तर पर 1, 00,000 महिलाएं, जोकि उसके कुल कर्मचारियों की संख्या का एक तिहाई है, कार्यरत हैं।
- कंपनी ने कहा, आईटी क्षेत्र में महिलाओं को अधिक अवसर दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुये हम यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ काम करना कितना लाभदायक है। हमारा लक्ष्य ऐसा माहौल तैयार करना है जहाँ महिलाओं को महत्वाकांक्षी एवं आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

दिल्ली की प्रियदर्शिनी चटर्जी बर्नी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016

दिल्ली की प्रियदर्शिनी चटर्जी ने एफबीबी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। यहां एक भव्य समारोह में सुपरस्टार शाहरुख खान ने प्रियदर्शिनी को विजेता घोषित किया।

- समारोह में बेंगलुरु की सुश्रुति कृष्णा और लखनऊ की पंखुड़ी गिडवानी ने प्रथम और द्वितीय रनर अप का खिताब हासिल किया।
- प्रियदर्शिनी चटर्जी अब मिस वर्ल्ड 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

संत उपाधि से पूर्व मदर टेरेसा को ब्रिटेन ने दिया फाउंडर्स अवॉर्ड

मदर टेरेसा के देहांत के 19 साल बाद ब्रिटेन उन्हें देश का प्रतिष्ठित फाउंडर्स अवॉर्ड देने जा रहा है।

- यह सम्मान वैश्विक एशियाई समुदाय के लोगों को उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों को मान्यता देता है और उन्हें पुरस्कृत करता है।
- यह पुरस्कार व्यापार, लोकोपकार, मनोरंजन, संस्कृति और खेल सहित 14 श्रेणियों में दिया जाता है।
- उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरेटी की स्थापना की थी और 45 साल तक गरीब, बीमार, अनाथ और कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले बेसहारा लोगों की खिदमत की थी।

खदीजा ईस्माइलोवा को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता प्राइज 2016

अजरबेजान के पत्रकार खदीजा ईस्माइलोवा को यूनेस्को/गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता प्राइज 2016 से नवाजा गया है।

- उन्हें इस पुरस्कार के लिये 12 समाचार चैनल वाली जूरी ने विकट परिस्थितियों में की गई पत्रकारिता के लिये चुना है।

प्रियंका चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड

दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन ने प्रियंका को इस साल 'बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड' के लिए चुना है।

- प्रियंका चोपड़ा को 24 अप्रैल को दादा साहेब फाल्के की 147 वीं जयंती के अवसर पर ये अवार्ड दिया जाएगा।

- यह उनका दूसरा ऐसा अवार्ड होगा। इससे पहले प्रियंका को 2011 में आई फिल्म 'सात खून माफ' के लिए दादासाहेब फिल्म फाउंडेशन की ओर से 'मोस्ट मेमोरेबल पर्फॉर्मेंस' अवार्ड दिया गया था।

बनारस की सोनी ने बनाया 123घंटे 30मिनट तक कथक करने का विश्व रिकॉर्ड

बनारस की बेटी सोनी चौरसिया ने लगातार 123 घंटे 30 मिनट तक कथक कर के सबसे लंबा डांस करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है।

- सोनी चौरसिया ने केरल के त्रिचूर की हेमलता कमंडलु का 123 घंटे 20 मिनट लगातार मोहिनी अट्टम डांस करने का वर्ल्ड रिकार्ड तोड़ दिया है।

ऐश्वर्या राय को दिया गया 'ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर' सम्मान

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को 'ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या को यहां आयोजित एनआरआई ऑफ द ईयर पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया।

- 42 वर्षीय ऐश्वर्या ने यह पुरस्कार अपनी बेटी अराध्या को समर्पित किया।
- ऐश्वर्या के अलावा टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 'ग्लोबल इंडियन आइकॉन' के तौर पर सम्मानित किया गया।

जनरल जे जे सिंह फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लिजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे जे सिंह को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लिजियन ऑफ ऑनर

से सम्मानित किया गया। सिंह को फ्रांस के राजदूत फ्रेंकोइस रिचिअर द्वारा सम्मानित किया गया।

- सिंह का चुनाव भारतीय सेना में तारकीय भूमिका निभाने पर किया गया तथा उनके द्वारा भारत एवं फ्रेंच आर्मी के मध्य किये गये सहयोग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी उनका चुनाव किया गया।

पद्मा सचदेव को सरस्वती सम्मान

प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान वर्ष 2015 के लिए डोगरी की साहित्यकार पद्मा सचदेव की आत्मकथा चित्त-चेत को चुना गया है।

- पुरस्कार की चयन प्रक्रिया के तहत 2005 से 2014 के बीच में 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद चयन परिषद ने यह एलान किया।
- इस सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति और प्रतीक चिह्न भेंट किया जाता है।

जोकोविच और सेरेना ने जीता लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता है।

- सेरेना विलियम्स ने भी तीसरी बार 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता है।

पुलित्जर पुरस्कार 2016 विजेता

संयुक्त राज्य अमेरिका में अखबार में उपलब्धियों और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत की रचना के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

• पत्रकारिता के सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को एक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है।

2016 के विजेता

- लोक सेवा - एसोसिएटेड प्रेस
- ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग - लॉस एंजिल्स टाइम्स स्टाफ
- खोजी रिपोर्टिंग - लियोनोरा ला पीटर एंटोन और ताम्पा खाड़ी टाइम्स के एंथोनी कॉर्मियर और सारासोटा हेराल्ड ट्रिब्यून के माइकल ब्रागा
- व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग - प्रोपब्लिका के टी ईसाई मिलर और मार्शल परियोजना के केन आर्मस्ट्रांग
- स्थानीय रिपोर्टिंग - माइकल ला फॉर्जिआ, कारा फिट्पेट्रिक और ताम्पा खाड़ी टाइम्स की लिसा गार्टनर
- राष्ट्रीय रिपोर्टिंग - वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ
- अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग - न्यूयॉर्क टाइम्स की अलिसा जे रुबिन
- फीचर लेखन - न्यू यॉर्कर के कॅथीन शुल्ज
- टीका - बोस्टन ग्लोब के फराह स्टोकमेन
- आलोचना - न्यू यॉर्कर की एमिली नजबॉम

तारा गांधी भट्टाचार्य को फ्रांस का शीर्ष सम्मान

महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य को शांति को बढ़ावा देने, एकता, संस्कृति, शिक्षा और विकास में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शीर्ष सम्मानों में से एक 'द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' से नवाजा गया है।

- तारा को 'द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' से फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से फ्रांस के राजदूत फ्रैंकोइस रिचियर ने सम्मानित किया।

गूगल भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता: रैंडस्टैड

रैंडस्टैड पुरस्कार के छठे संस्करण में गूगल इंडिया लगातार दूसरे साल सबसे आकर्षक नियोक्ता के तौर पर उभरा। जिसके बाद मर्सिडीज-बेंज का स्थान रहा।

- क्षेत्र विशेष से जुड़ा विशेष सम्मान के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का पुरस्कार: डेल
- उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में: सैमसंग इंडिया
- ई-वाणिज्य के लिए: अमेजन इंडिया

खेल

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैक्के ने सन्यास लिया

ऑस्ट्रेलियाई के तेज गेंदबाज क्लिंट मैक्के ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास की घोषणा कर दी है।

- हालांकि वे काउंटी क्रिकेट में लैंकशायर के लिये खेलना जारी रखेंगे।

वेस्टइंडीज दूसरी बार बना टी-20 चैंपियन

वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले आईसीसी टी-20 विश्वकप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है।

- इंग्लिश टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा था। कैरेबियाई टीम ने मार्लन सैमुएल्स के बेहतरीन नाबाद 85 रनों और कार्लोस ब्राथवेट (नाबाद 34 रन, 10 गेंद, एक चौका, 4 छक्के) द्वारा अंतिम ओवर में लगाए गए चार लगातार छक्कों की मदद से 19.4 ओवरो में छह विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए।

महिला टी-20 वर्ल्डकप : वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पहली बार खिताब जीता

वेस्ट इंडीज ने फाइनल में तीन बार के गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड टी 20 का खिताब जीत लिया।

- हेली मैथ्यूज के करियर के पहले अर्धशतक और कप्तान स्टेफनी टेलर के साथ उनकी पहले विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज ने यह कारनामा किया।

मर्सिडीज ड्राइवर निको रोसबर्ग ने बहरीन ग्रांप्री 2016 का खिताब जीता

मर्सिडीज ड्राइवर निको रोसबर्ग (जर्मनी) ने 3 अप्रैल 2016 को वर्ष 2016 सत्र में फॉर्मूला वन रेस गल्फ एअर बहरीन ग्रां प्री का खिताब जीता। फानलरेस राजधानी मनामा के पास साखिर में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई।

- निको रोसबर्ग के करियर का यह 16वां फॉर्मूला वन ग्रां प्री खिताब और लगातार पांचवी जीत है। इससे पहले निको रोसबर्ग 2015 सत्र की अंतिम तीन फाइनल रेस और 2016 सत्र के ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में जीत दर्ज कर चुके हैं।

केन विलियमसन, बेन स्टोक्स 2015 के विज्डन के शीर्ष पांच क्रिकेटर्स में शामिल

विज्डन के 153वें और नवीनतम संस्करण में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और पूर्ववर्ती ब्रेंडन मैकुलम को शामिल किया गया है जो विज्डन के वर्ष के पांच क्रिकेटर्स में हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो अन्य तीन खिलाड़ी हैं।

अजलान शाह हॉकी के फाइनल में हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड नौवीं बार जीता खिताब

ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा मुकाबले में भारत को शनिवार को 4-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया।

- ऑस्ट्रेलिया ने रिकार्ड नौवीं बार खिताब जीता है।
- न्यूजीलैंड तीसरे जबकि मेजबान मलेशिया चौथे स्थान पर रहे।
- टूर्नामेंट मलेशिया के नौवें किंग और फील्ड हॉकी के प्रशंसक, सुल्तान अजलान शाह के नाम पर है।

श्रीलंका के रंगना हेराथ का वनडे, T 20 से संन्यास

श्रीलंका के स्पिनर रंगना हेराथ ने टेस्ट मैच कैरियर के लिए 50 ओवर और ट्वेंटी -20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है।

- 38 वर्षीय हेराथ ने 71 वनडे में 74 और 17 टी-20 मैचों में 18 विकेट लिए। 2011 में महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के संन्यास के बाद से स्पिन गेंदबाजी आक्रमण का बोझ उनके ही कंधों पर है।
- एक बाएं हाथ के स्पिनर द्वारा टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड हेराथ के ही नाम पर है।

भारत एशियन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट में विजेता रहा

भारत ने एशियन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय पुरुषों ने फाइनल राउंड में विएतनाम को 3-1 से हराया।

- भारत के गेंडमास्टर एसपी सेतुरमन और के. शशिकिरण ने फाइनल राउंड में विएतनाम के खिलाफ दूसरे और चौथे बोर्ड पर जीत दर्ज की।

वहीं, ग्रैंडमास्टर बी अधिबान और विदित संतोष गुजराथी ने पहले और तीसरे बोर्ड पर विपतनाम के खिलाफ ड्रॉ खेला।

- भारत 17 अंक के साथ शीर्ष पर रहकर चैंपियन बना। वर्ल्ड चैंपियन चीन (15 अंक) को दूसरे स्थान ने संतोष करना पड़ा।

ली चोंग वेई ने 11वीं बार मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता

मलेशिया के खिलाड़ी ली चोंग वेई ने 10 अप्रैल 2016 को मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती। उन्होंने 11वीं बार यह खिताब जीता।

- ली चोंग ने 42 मिनट तक चले मुकाबले में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी चीन के चेन लोंग को 21-13, 21-8 से हराया।

डेनी विलेट ने जीता यूएस मास्टर्स गोल्फ 2016 खिताब

इंग्लैंड के डेनी विलेट यूएस मास्टर्स गोल्फ 2016 के चैंपियन बने जो उनका पहला मेजर खिताब है। विलेट पिछले 20 साल में मास्टर्स जीतने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं।

- उन्होंने आखिरी नौ होल में अच्छा प्रदर्शन करके मौजूदा चैंपियन जोर्डन स्पीथ को पीछे छोड़ा। उन्होंने आखिरी दौर में पांच अंडर 67 का कार्ड खेलकर तीन शॉट से जीत दर्ज की।
- वह गोल्फ के उदीयमान सितारे हैं जो दो साल में ही टॉप 10 में शामिल हो गये हैं।

मार्च के श्रेष्ठ एशियाई टूर गोल्फर चुने गए चौरसिया

भारत के एसएसपी चौरसिया को मार्च महीने के लिए सबसे अच्छा हिल्टन एशियन गोल्फ खिलाड़ी चुना गया।

चौरसिया को हीरो इंडिया ओपन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान हासिल हुआ। वे यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर हैं। उनसे पहले लाहिड़ी को गत वर्ष यह सम्मान दिया गया था।

- चौरसिया ने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन कर 2015 वर्ष के 'हिल्टन एशियन टूर गोल्फर' अर्निबान लाहिड़ी और कोरियाई स्टार जेयूंगहुन वांग को दो शाट से पछाड़ते हुए अपना तीसरा एशियाई टूर खिताब जीता था।

इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स टेलर ने की संन्यास की घोषणा

इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स टेलर को दिल की गंभीर बीमारी की वजह से महज 26 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने के लिये बाध्य होना पड़ा।

- टेलर ने इंग्लैंड के लिए सात टेस्ट और 27 वनडे मैच खेले। टेलर ने इंग्लैंड के लिए एक वनडे में कप्तानी भी की थी।

दीपा बर्नी ओलंपिक में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट

दीपा करमाकर ने इतिहास रच दिया, वह ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गईं। दीपा ने यहां अंतिम क्वालीफाइंग और परीक्षण टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रियो ओलंपिक का टिकट कटायी।

- उन्होंने 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनकर इतिहास रच दिया था।

- वह जिमनास्टिक में राष्ट्रमंडल पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और आशीष कुमार के बाद दूसरी भारतीय है।

रियो निशानेबाजी वर्ल्ड कप में भारत के मैराज ने जीता

रजत

भारत के निशानेबाज मैराज अहमद खान ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप की स्कीट प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल कर लिया है जो भारत के लिए इस टूर्नामेंट के स्कीट मुकाबले में पहला पदक है।

- 40 वर्षीय मैराज पुरुषों के स्कीट स्वर्ण पदक मुकाबले में स्वीडन के मार्कस स्वेनसन से शूटऑफ टाईब्रेकर में 2-1 से हार गए। मैराज ने अंतिम चरण के क्वालिफायर राउंड में 125 में से 122 शॉट लगाकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। वह छह निशानेबाजों में दूसरे स्थान पर रहे थे।
- प्रतियोगिता के फाइनल चरण में मैराज और मार्कस दोनों ने ही 16 में से 15 क्ले लक्ष्यों को निशाना बनाकर स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए अधिकार हासिल कर लिया जहां मार्कस ने बाजी मार ली।

राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता

राफेल नडाल ने जापान के केई निशिकोरी को 6-4,7-5 से हराकर बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। यह नडाल का नौवां बार्सिलोना ओपन खिताब था।

- इस जीत के साथ ही नडाल गुइलेर्मो विलास द्वारा 1970 में 49 क्ले कोर्ट खिताब जीतने के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गये। गुइलेर्मो ने 1970 से 1980 के बीच 49 क्ले कोर्ट खिताब जीते।

नंदू नाटेकर सीसीआई के लीजेंड्स क्लब में शामिल होने वाले पहले गैर क्रिकेट खिलाड़ी बने

दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (CCI) के लीजेंड्स क्लब में शामिल किया गया है। नंदू नाटेकर इस क्लब में शामिल किए गए पहले गैर क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

- इसके साथ ही लीजेंड्स क्लब अबसे 12 मई को नंदू नाटेकर और 6 जनवरी को कपिल देव का जन्मदिन मनाएगा।
- अब तक लीजेंड्स क्लब विजय मर्चेंट, विजय हजारे, वीनू मांकड़, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन मनाता था।

आईसीसी ने नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन को निलंबित

किया

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 26 अप्रैल 2016 को बोर्ड मीटिंग में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएएन) को निलंबित करने का निर्णय लिया। इसका कारण एसोसिएशन में सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप है।

- यह निलंबन सीएएन में सरकार के हस्तक्षेप के समाप्त होने एवं एसोसिएशन द्वारा नेपाल में मौजूद क्रिकेट टैलेंट को तलाशने तक जारी रहेगा।

इस निर्णय से केवल सीएएन को मिलने वाले फंड्स में कटौती की जाएगी लेकिन नेपाल की टीम आईसीसी के अन्य कार्यक्रमों में भाग ले सकेगी।

टीम इंडिया इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी

पहला डे-नाइट टेस्ट

टीम इंडिया इसी साल अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। तीन टेस्ट की सीरीज में एक टेस्ट डे-नाइट होगा, जिसमें गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। गुलाबी गेंद कुकाबुरा कंपनी की होगी।

- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक एक ही डे-नाइट टेस्ट खेला गया है। ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेड में खेला गया था।

राफेल नडाल ने गेल मोनफिल्स को हराकर मॉंटे कार्लो

मास्टर्स खिताब जीता

राफेल नडाल ने गेल मोनफिल्स को हराकर वर्ष 2016 का मॉंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है।

- नडाल ने 100वां एटीपी मैच खेलते हुए 7-5 5-7 6-0 से फाइनल मुकाबला जीता है। यह उनका नौवां खिताब है लेकिन 2012 के बाद पहला एटीपी खिताब है।
- राफेल नडाल ने 2005 से 2012 तक लगातार आठ बार यह खिताब जीता, ऐसा करने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं।

विष्णु वर्धन पहले एटीटी चैंपियन बने

पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विष्णु वर्धन ने रिकॉर्ड पुस्तकों में अपना नाम रखते हुए एशियाई टेनिस टूर (एटीटी) के पहले चैंपियन बन गये हैं। विष्णु ने नई दिल्ली के डीएलटीए परिसर में \$5,000 ईनामी राशि के फाइनल में सिद्धार्थ रावत को 7-6 (7), 6-3 से हराया।

- विष्णु वर्धन आंध्र प्रदेश से एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं।

निधन

जाने माने लेखक, पत्रकार बाबू भारद्वाज का निधन

जाने माने लेखक एवं पत्रकार बाबू भारद्वाज का निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। श्री भारद्वाज को हृदय संबंधित बीमारी थी और वह यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां हृदयघात से उनका निधन हो गया।

- श्री भारद्वाज आनलाइन न्यूज पोर्टल 'डूल न्यूज' के मुख्य संपादक थे। इसके अलावा वह निजी चैनल कैराली टीवी, मीडिया वन और चिंता मैगजीन में काम कर चुके थे। श्री भारद्वाज भारतीय छात्र संगठन (एसएफआई) के पहले संयुक्त सचिव रह चुके हैं।
- उन्हें 'कल्पंगालकोरु गृहपदम' के लिए केरल साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेखन और पत्रकारिता के अलावा उन्होंने 'इनीयम मारिचितिलाता नाम्मल' फिल्म का निर्माण भी किया था।

ब्रिटिश कॉमेडियन रॉनी कॉर्बेट का निधन

ब्रिटिश अभिनेता एवं कॉमेडियन रॉनी कॉर्बेट का 31 मार्च 2016 को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें बीबीसी द्वारा प्रसारित होने वाले हास्य कार्यक्रम द टू रॉनीज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

- कॉर्बेट ने 1960 के दशक में डेविड फ्रॉस्ट के व्यंग्य कॉमेडी कार्यक्रम फ्रॉस्ट रिपोर्ट में विशेष प्रसिद्धी हासिल की। इसके अतिरिक्त वे सिटकॉम 'नो-टैट्समी ओवर हेयर!' एवं 'नाउ लुक हेयर एंड सॉरी!' में भी प्रमुख किरदार निभाते नजर आये।

जानीमानी आर्किटेक्ट जहा हदीद नहीं रहीं

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इराकी-ब्रिटिश आर्किटेक्ट जहा हदीद का निधन हो गया। वह 65 वर्ष की थीं।

- वर्ष 2004 में हदीद पहली महिला एवं मुस्लिम व्यक्ति थीं जिन्होंने परित्जकर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार वास्तुकला के नोबेल के रूप से जाना जाता है।
- 31 अक्टूबर 1950 को बगदाद में जन्मीं हदीद ने लेबनान स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी से गणित की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे 1972 में लंदन में आर्किटेक्चर एसोसिएशन से जुड़ीं।
- हदीद ने लंदन एक्वेटिक सेंटर डिजाइन किया जिसे 2012 लंदन ओलंपिक्स के दौरान उपयोग किया गया।

पंजाब के लोकपाल जस्टिस जे.एस. सेखों का निधन

पंजाब के लोकपाल और पूर्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जय सिंह सेखों का निधन हो गया।

- सेखों, पंजाब कैबिनेट मंत्री जन्मेजा सिंह सेखों के बड़े भाई, एक साल से अधिक समय से कैंसर से लड़ रहे थे।
- उन्होंने फिरोजपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वह राज्य की कई अदालतों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके थे।

हीरो समूह के सह-संस्थापक सत्यानंद मुंजाल का निधन

हीरो साइकिल समूह के सह-संस्थापक सत्यानंद मुंजाल का माँडल टाउन, लुधियाना में 99 साल की उम्र में निधन हो गया।

- मुंजाल आर्य समाज से संबंधित कई सामाजिक कार्यों के लिए 'महात्मा' सत्यानंद मुंजाल के रूप में जाने जाते थे।
- 1984 में डॉ बृजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो होंडा को भारत के हीरो और जापान की होंडा साइकिल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया था।

'शरलॉक होम्स' वाले एक्टर डगलस नहीं रहे

'शरलॉक होलम्स' वाले एक्टर डगलस विल्मर का निधन हो गया। वो 96 साल के थे।

- डगलस 1960 के दशक के मध्य में आई बीबीसी की सीरीज में निभाए अपने आर्थरकॉनन डॉयल के किरदार के लिए काफी मशहूर थे।

ब्रिटिश नाटककार अर्नोल्ड वेस्कर का निधन

ब्रिटिश नाटककार अर्नोल्ड वेस्कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पार्किंसंस रोग था।

- लंदन में पैदा हुए अर्नोल्ड विपुल राजनीतिक लेखक जिन्होंने 40 से अधिक नाटकों, साथ ही निबंध, कविता और लघु कहानियों की पुस्तकें लिखीं। उन्होंने बाल साहित्य और एक उपन्यास, हनी, जो 2005 में प्रकाशित किया गया था, भी लिखे थे।

नहीं रहे दिग्गज पत्रकार योगेंद्र बाली

वरिष्ठ पत्रकार व लेखक योगेंद्र बाली का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे।

- वह ललित कला अकादमी की जनरल काउंसिल के सदस्य थे और इसकी कला, शिक्षा, प्रकाशन

तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से संबद्ध समितियों के भी सदस्य रहे।

- अपने लंबे करियर में योगेंद्र ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में बतौर संवाददाता भी सेवा दी।
- योगेंद्र द्वारा लिखित पुस्तकों में 'द कम्यूनल बोगी', 'चंद्र शेखर : एपॉलिटिकल बायोग्राफी', 'पवन चैमलिंग : डेयरिंग टू बी डिफरेंट' और 'श्रीसतगुरु राम सिंह जी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया' शामिल हैं।

बांग्लादेश में समलैंगिक अधिकारों की समर्थक पत्रिका के संपादक की हत्या

बांग्लादेश के पहले समलैंगिक अधिकारों का समर्थन करने वाली एकमात्र पत्रिका के संपादक जुल्हाश मन्नान और उनके दोस्त की ढाका में बेरहमी से हत्या कर दी गई।

- पिछले साल फरवरी के बाद से संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा कई धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक लेखकों और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य मारे गए हैं।

केरल के कार्टूनिस्ट वीटी थॉमस का निधन

केरल के कार्टूनिस्ट वीटी थॉमस का 27 अप्रैल 2016 को कोट्टायम, केरल में निधन हो गया। वह टॉम्स के नाम से भी जाने जाते थे। वे 86 वर्ष के थे।

- टॉम्स प्रसिद्ध कार्टून चरित्र बोबन और मौली (बोबनुम मोलियुम) बनाने के लिए जाने जाते थे।
- प्रारंभ में 1950 में बोबन और मौली पात्र सथ्यदीपम साप्ताहिक के कार्टून कॉलम में प्रेषित हुए और 1957 के बाद मलयाला मनोरमा साप्ताहिक का स्थायी हिस्सा बन गए। उन्होंने 1987 में मलयाला मनोरमा से इस्तीफा दिया और अपना प्रकाशन शुरू किया।

जेकेएलएफ के संस्थापक अमानुल्ला खान का निधन

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सदस्यों में से एक अमानुल्ला खान का पाकिस्तान के रावलपिंडी में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे।

- पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट निवासी खान राज्य की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी)-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार में मंत्री सज्जाद गनी लोन के ससुर थे।
- उन्हें 1965 में जेके जनमत संग्रह मोर्चा का महासचिव निर्वाचित किया गया था और वह मकबूल भट्ट के साथ जेके नेशनल लिबरेशन फ्रंट (NLF) के सह-संस्थापक थे।

प्रसिद्ध संगीतकार प्रिंस रॉजर्स नेल्सन का निधन

पॉप संगीत क्षेत्र के सुपरस्टार रॉजर्स नेल्सन जिन्हें प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, उनका पैस्ले पार्क में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे।

उनके प्रसिद्ध गीत हैं वेन डक्स क्राई, क्रीम एंड किस। उनका आखिरी एलबम हिट एन रन फेज वन सितम्बर 2015 में जारी हुआ।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री सी सिल्वेरा का निधन

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता सी सिल्वेरा का हृदयघात के कारण निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। सिल्वेरा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले अब तक के पहले मिज़ो नेता थे।

- उनका जन्म 6 मई 1935 को हुआ तथा राजनीति में आने से पहले मिजोरम के बैप्टिस्ट चर्च में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर भी काम किया था।

- सिल्वेरा 1985 में राज्यसभा के लिए चुने गये और नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं लोकसभा चुनाव में विजयी हुये।
- वे 17 फरवरी 1994 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय राज्यमंत्री नियुक्त किये गये। इसके बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया।

प्रसिद्ध मालियन फोटोग्राफर मलिक सिदिबे का निधन

प्रसिद्ध मालियन फोटोग्राफर मलिक सिदिबे का 14 अप्रैल 2016 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे।

- सिदिबे को उनके द्वारा 1960 से 70 के दशक में लिए गये मालियन लोगों के जीवन पर केन्द्रित ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों के कारण जाना जाता है।
- वर्ष 2007 में वे गोल्डन लायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकन फोटोग्राफर बने।
- उन्हें हस्सेबल्ड अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी इनफिनिटी द्वारा भी उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

वित्तमंत्री के पीआरओ और पूर्व पत्रकार डी. रविन्द्र का निधन

तेलंगाना के वित्त मंत्री इतेला राजेंद्र के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व पत्रकार डी रविंदर का निधन हो गया।

- रविंदर करीमनगर जिले के रायकल से थे।
- वह ईटीवी और साक्षी तेलुगू समाचार चैनल के लिए पत्रकार के रूप में काम कर चुके थे।
- बाद में वह वित्त मंत्री के पीआरओ के रूप में शामिल हो गए।

WWE की मशहूर रेसलर चीना का निधन

WWE की मशहूर रेसलर चीना (जुआन लोरेर) की अचानक मौत हो गयी। चीना अपने कैलीफोर्निया की घर में मृत पाई गयी।

जब चीना ने 1999 रॉयल रंबल मैच के दौरान 30वीं प्रतिभागी के रूप में भाग लिया तो वह WWE के इतिहास में रॉयल रंबल मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई।

इटली के पूर्व कोच सीजर मालदीनी का निधन

एसी मिलान के डिफेंडर और कप्तान रहे इटली के पूर्व कोच सीजर मालदीनी का 3 अप्रैल 2016 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया।

- मालदीनी ने 1954 से 1962 के बीच मिलान क्लब के साथ चार सेरी ए लीग खिताब जीते। बतौर कप्तान उन्होंने 1963 में एसी मिलान के लिए यूरोप कप भी जीता।
- खिलाड़ी के तौर पर करियर से संन्यास लेने के बाद उन्होंने 1972-1974 के बीच क्लब के कोच का पद संभाला।

पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रंजन बेंदूर का निधन

रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर रंजन बेंदूर का हृदयघात के कारण 4 अप्रैल 2016 को मुंबई में निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे।

- उन्होंने 1984-85 के बीच 16 रणजी ट्रॉफी मैच खेले जिसमें 37.20 की औसत 20 विकेट हासिल किये। उन्होंने 19.75 की औसत से 316 रन भी बनाए।
- वे ऑफ स्पिनर एवं निचले क्रम के बल्लेबाज थे तथा टाटा स्पोर्ट्स क्लब के पूर्व सचिव थे। बेंदूर

मुंबई की अंडर-19 चयन समिति के अध्यक्ष भी थे।

मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के वास्तुकार माइनेनी हरि प्रसाद राव का निधन

माइनेनी हरि प्रसाद राव, जिन्हें मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन (एमएपीएस) का जनक भी कहा जाता है, का 5 अप्रैल 2016 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे।

- उन्होंने तीन वर्ष तक मुंबई परमाणु विद्युत बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पद पर कार्य किया।

इसके अतिरिक्त वे कई वर्षों तक दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भारत क्षेत्र के विद्युत बोर्ड के सदस्य पद पर भी कार्यरत रहे।

पटकथा लेखक बारबरा टर्नर का निधन

बारबरा टर्नर, "जॉर्जिया" की पटकथा लेखक का निधन हो गया है। वह 79 वर्ष की थीं।

- उन्हें दो बार एमी अवार्ड से नवाजा गया तथा उन्होंने पेटुलिया, जॉर्जिया व पॉलॉक जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

पुस्तकें

करतार लालवानी द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ इंडिया: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंटरप्राइज

करतार लालवानी द्वारा रचित पुस्तक 'द मेकिंग ऑफ इंडिया: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंटरप्राइज' अप्रैल 2016 में चर्चा में रही है। इसमें ब्रिटिशराज के दौरान भारत में पनपी एकता के बारे में लिखा गया है।

- इस पुस्तक द्वारा औपनिवेशिक शासन की कई सकारात्मक पहलू सामने आये।
- पुस्तक का आरंभ 17वीं सदी में आरंभ होती है जब छोटे समुद्री द्वीप से नए अवसरों की तलाश में 11000 मील की यात्रा के लिए समुद्री जहाजों को रवाना किया गया।

केजरीवाल ने लॉन्च की इमरान हाशमी की किताब

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की किताब 'किस ऑफ लव' लॉन्च की।

- बिलाल सिद्दीकी द्वारा लिखित पुस्तक के इमरान हाशमी सह लेखक हैं।
- किताब को पेंग्विन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- इमरान हाशमी ने अपने छह साल के बेटे अयान की कैंसर से लड़ाई पर यह किताब लिखी है। पूरी किताब अभिनेता के चार वर्षीय बेटे अयान के किडनी के कैंसर से जूझने के दौरान उससे उबरने की उनकी यात्रा और इस दौरान हाशमी और उनकी पत्नी ने जो कुछ भी सहन किया उस लंबे संघर्ष के दौर की दास्तां कहती है।

स्कॉट कैली अंतरिक्ष के अनुभवों पर पुस्तक लिखेंगे

नासा के एस्ट्रीनॉट स्कॉट कैली अंतरिक्ष के अपने अनुभवों पर "एंड्योरेंस: माय इयर इन स्पेस एंड ओअर जर्नी टू मार्स" नामक पुस्तक लिखेंगे। स्कॉट करीब 1 वर्ष अंतरिक्ष में बिताकर मार्च में लौटे थे।

- इसका प्रकाशन अल्फ्रेड ए. नॉफ द्वारा किया जायेगा।
- उन्होंने स्पेस स्टेशन में लगातार 340 दिन कार्य किया जो कि एक रिकॉर्ड है।

'अ स्टेट इन डिनायल: बी.जी. वर्गीज

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित वार्ता में बीजी वर्गीज द्वारा लिखित पुस्तक 'अ स्टेट इन डिनायल को पुनः रिलीज किया गया।

- शशि थरूर ने इसे भारत - पाक संबंधों की सबसे सटीक व्याख्या बताया।

BankExamsToday.com

